

**jkt; ds uxjh; LFkkh; fudk; ka ds
foRr dk eW; kadu % , d I we Lrjh; fo'yšk.k**

12.1.0 प्रस्तावना :

12.1.1 आयोग ने एक पिछले अध्याय, जिसमें **XII09** वित्त आयोग को वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के स्मरण-पत्र में उपलब्ध आँकड़ों तथा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये आकड़ों के आधार पर छत्तीसगढ़ के न.स्था.निकाय वित्त की वृहत समीक्षा प्रस्तुत की है। इस तथ्य के बावजूद, कि उपलब्ध आँकड़े राजस्व एवं व्यय के केवल कुछ समूहीकृत चरों के संबंध में थे। समीक्षा से हमें राज्य के **u-LFkk-fudk; ka** के वित्तीय स्वास्थ्य की पर्याप्त स्थिति ज्ञात हो सकी। इस समीक्षा से, वृहत से सूक्ष्म की ओर की हमारी यात्रा सुगम होगी। वृहत-अध्ययन की मुख्य सीमा यह थी, कि समूहीकृत होने के कारण वह कतिपय समूहों से आगे नहीं जा सकती थी तथा उससे हम समूहों में शामिल उनके अनेक घटकों के बीच आपसी संबंध नहीं समझ पाते। इसके अतिरिक्त वृहत-अध्ययन राजस्व अंतराल के आकलन में हमारी सहायता नहीं करता, जो **u-LFkk-fudk; ka** की आवश्यकताओं एवं साधन जुटाने की उनकी अपनी क्षमताओं के बीच की दरार को कम करने के लिये अत्यन्त आवश्यक है। उस अध्ययन का उपयोग **jktLo , oa 0; ; ds 0; fDrxr enka dh i qjpk** संबंधी अनुशंसा करने के लिये भी नहीं किया जा सकता था।

12.1.2 **bl v/; k; ea ge U; kn'khZ u-LFkk-fudk; ka I s vk; ksx }kjk r\$ kj dh xbZ I jfpr izukoyh ds ek/; e I s ,df=r jktLo , oa 0; ; ds 0; fDrxr enka I s I xf/kr vkqdmka ds vk/kj ij jkt; dh u-LFkk-fudk; ka ds foRr dk eW; kadu djxR** राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग के मैदानी अमलें के द्वारा राज्य की **u-LFkk-fudk; ka** के वित्त संबंधी

आँकड़ों को एकत्रित करने एवं उनके संकलन की किसी नियमित व्यवस्था के अभाव में **jk-fo-vk** ने उसे सौंपे गये कार्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस व्यष्टि स्तरीय अध्ययन को सम्पादित किया। फील्ड से एकत्रित आँकड़ों की प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता को आयोग द्वारा अपने मुख्यालय में चैक किया गया। इस चैकिंग के बाद भी अध्ययन में कतिपय कमियाँ एवं त्रुटियाँ हो सकती हैं, जिनके मुख्य कारण **u-LFkk-fudk; ka** द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़ों के संकलन एवं उनकी आपूर्ति की प्रणाली हो सकते हैं।

12.1.3 **bl eif; kdu dk iedqk mnns; u-LFkk-fudk; ka dh foRrh; 'kfDr; ka ,oa detkfj; ka dh okLrfod tkudkjh itlr djuk rFkk v/; ; u ds ifj.kkka dk mi; ksx mudh Hkfo"; dh vko'; drkvka dk vkdyu djuk gA** अध्ययन में पाँच वर्ष की अवधि के लिये प्रमुख वित्तीय आँकड़ों को एकत्रित एवं संकलित कर उनके वित्तीय निष्पादन की शक्तियों एवं कमजोरियों को जानने का प्रयास किया गया है।

12.1.4 सौंपे गये कार्य को पूरा करने के लिये हम **vxys nks v/; k; ka** में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करेंगे :-

1. **jktLo vrjky dk vkdyu** तथा **u-LFkk-fudk; ka** के लिये **jkt dk'kh; i d'st** की अनुशंसा करना।
2. **jkt dk'kh; i d'st ds vksA**

12.2.0 अध्ययन का क्षेत्र :

12.2.1 जैसा कि पूर्व में लिखा गया है, **jk-fo-vk** ने आँकड़ें एकत्रित करने हेतु प्रश्नावलियाँ तैयार की थी। ये प्रश्नावलियाँ राज्य के सभी **u-LFkk-fudk; ka** को इस मंशा से भेजी गयी थी, कि अध्ययन में ऐसी **u-LFkk-fudk; ka** की प्रश्नावलियाँ शामिल की जायेगी, जिन्होंने सभी प्रश्नों का सही एवं प्रासंगिक उत्तर दिया है। आयोग के मुख्यालय पर शोधकर्मियों के द्वारा चैकिंग की गयी।

हमें ये बताते हुये प्रसन्नता हो रही है, कि **uxj ikfyd fuxe** एवं **uxj ikfydk ifj'kn** का प्रतिसाद उत्साहवर्धक एवं संतोषजनक रहा है, परन्तु **uxj ipk; r** का प्रतिसाद निराशाजनक रहा है। ;g rF; I kj.kh Ø- 12-1 I sLi"V gkrk g\$ ftl ea iR; d oxl dh u-LFkk-fudk; ka dh dgy I 4; k ,oa mudh tul 4; k rFkk , dh u-LFkk-fudk; ka dh I 4; k , oa mudh tul 4; k nh x; h g\$ ftlga v/; ; u ea 'kkfey fd; k x; k g

12.2.2 सारणी से स्पष्ट होता है, कि हमारे न्यादर्श में 100% **uxj ikfyd fuxe**, 71.43% **uxj ikfydk ifj'kn** तथा केवल 27.78% **uxj ipk; r** शामिल हैं। तीनों वर्गों को मिलाकर देखने से हम पाते हैं, कि इसमें राज्य की कुल स्थानीय निकायों के 45.45% निकाय तथा उनकी कुल जनसंख्या का 82.56% शामिल है। जनसंख्या के मामले में न्यादर्श में **uxj ikfyd fuxe** की 100%, **uxj ikfydk ifj'kn** की 67.40% तथा **uxj ipk; r** की 36.11% जनसंख्या समाहित है। इस प्रकार हमारा न्यादर्श निकायों की संख्या एवं उनकी जनसंख्या दोनों दृष्टियों से समग्र का प्रतिनिधित्व करने के लिये पर्याप्त है।

12.2.3 यद्यपि इस अध्ययन का मुख्य लक्ष्य **u-LFkk-fudk; ka** के **jktLo y4ks ds jktLo ,oa 0; ;** से संबंधित है, चूंकि पूँजी निवेश से निर्मित आस्तियों के रख-रखाव के रूप में पूँजीगत व्यय का राजस्व व्यय पर प्रभाव पड़ता है और इस तथ्य के साथ भी पूँजीगत लेखे के व्यय में भी कोई उसका राजस्व घटक हो सकता है, अतः हमने वर्तमान मूल्यांकन में पूँजीगत लेखे को भी शामिल किया है। हमने राज्य के स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समग्र समीक्षा की दृष्टि से भी पूँजीगत व्यय को शामिल किया है, परन्तु हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे, कि हमारे संदर्भित विषयों के अनुसार हमसे पूँजीगत प्राप्तियों एवं पूँजीगत व्ययों के विभिन्न घटकों के विस्तृत अध्ययन की अपेक्षा नहीं की गयी है।

12.3.0 राजस्व मूल्यांकन :

- 12.3.1 जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, इस मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य **u-LFkk-fudk; k** की वित्तीय शक्तियों एवं कमजोरियों की वास्तविकता समझ लेना तथा प्राप्त परिणामों के आधार पर उनकी भविष्य की आवश्यकताओं का आकलन करना तथा उनके कार्यात्मक एवं राजकोषीय निष्पादन को सुधारने के लिये उनके वित्त की पुनर्रचना हेतु सुझाव देना है। अध्याय के इस भाग में राजस्व लेखे के साधनों के पूर्ति पक्ष, जिसमें राज्य सरकार के नियंत्रण एवं दिशा निर्देशों के अधीन रहते हुये एवं उन्हें नगरीय निकाय विधान के अंतर्गत प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के अनुसार जुटाती है, का मूल्यांकन किया गया है। मूल्यांकन उन साधनों के संबंध में भी किया जायेगा, जो उन्हें सरकार के उच्च स्तरों से सहायता अनुदानों, सौंपे गये राजस्व एवं क्षतिपूर्ति के अंतरण के रूप में, बाहर से प्राप्त होते हैं।
- 12.3.2 **u-LFkk-fudk; k** को **^Lo; a ds l k/kuk^** में शामिल **Lo; a ds dj , oa xj&dj jktLo** से तथा **u-LFkk-fudk; k** को **^gLrkj.k^** में शामिल **l gk; rk vuqku , oa l k s x; s jktLo** अथवा बाहर से प्राप्त राजस्व के रूप में राजस्व प्राप्त होता है।
- 12.3.3 **vuyxud Ø- 12-1] 12-2 , oa 12-3** में क्रमशः **uxj ikfyd fuxe k uxj ikfydk ifj 'knk** एवं **uxj ipk; rk** के राजस्व पक्ष की समग्र एवं विस्तृत तस्वीर प्रस्तुत की गई है। प्रतिवेदन के प्रमुख भाग में शामिल सारणियों को इन्हीं मूल अनुलग्नकों के आधार पर बनाया गया है।
- 12.3.4 **l kj .kh Ø- 12-2** में **jkt; e fofhku oxk dh u-LFkk-fudk; k** की 1999-2000 से 2003-04 तक की पाँच वर्ष की अवधि के लिये **dy jktLo ikflr; k ds ?kVd** दर्शाये गये हैं।
- 12.3.5 सारणियों से कतिपय महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट होते हैं— कुल स्वयं के राजस्व के प्रतिशत के रूप में स्वयं का कर राजस्व **uxj ikfyd fuxe k** में न केवल सर्वाधिक हैं, वरन् बढ़ रहा है, परन्तु **uxj ikfydk ifj 'knk** में इस प्रतिशत में

गिरावट हुई है। यह ध्यान देने योग्य है, कि **uxj ipk; rka** में उनके स्वयं के कुल राजस्व में तथा उनके कर राजस्व के प्रतिशत में वृद्धि हुई है। गैर-कर राजस्व के मामले में, कुल स्वयं के राजस्व तथा कुल राजस्व प्राप्तियों में उसका प्रतिशत **uxj ikfyd fuxeKa** एवं **uxj ipk; rka** में कम हुआ है, परन्तु **uxj ikfydk ifj 'knka** में बढ़ा है। कुल राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के कुल साधनों के प्रतिशत के रूप में देखने पर हम पाते हैं, कि इन प्रतिशतों में तीनों वर्गों की **u-LFkk-fudk; ka** में कमी हुई है। इसके परिणाम स्वरूप तीनों वर्गों में राज्य से हस्तांतरणों पर निर्भरता में वृद्धि हुई है तथा यह निर्भरता **uxj ipk; rka** के मामले में सर्वाधिक है। यह उनकी कुल राजस्व प्राप्तियों की 85% है।

12.4.0 नगर पालिक निगमों के राजस्व के स्रोत :

- 12.4.1 अब हम, राज्य की विभिन्न वर्गों के **u-LFkk-fudk; ka** के राजस्व के स्रोतों का विश्लेषण करेंगे। प्रथमतः हम अपना ध्यान **uxj ikfyd fuxeKa** पर केन्द्रित करेंगे। **I kj.kh Ø- 12-3** में **uxj ikfyd fuxeKa dk jktLo** दर्शाया गया है, जो (i) स्वयं के राजस्व एवं उसका स्वयं के कर एवं स्वयं के गैर-कर में विभाजन तथा (ii) राज्य एवं केन्द्र सरकार से हस्तांतरण में वर्गीकृत है।
- 12.4.2 सारणी स्पष्ट करती है, कि **dy jktLo ikflr; ka** के प्रतिशत के रूप में **uxj ikfyd fuxeKa** के **dj jktLo , oa xj&dj jktLo** में कमी हो रही है, परन्तु राज्य एवं केन्द्र सरकार से प्राप्त हस्तांतरणों का **dy jktLo ikflr; ka** में अंशदान 1999-2000 के 59.02% से बढ़कर 2003-04 में 71.47% हो गया है। **dy jktLo ikflr; ka ea Lo; a ds I k/kuka** का योगदान 1999-2000 के 40.98% से घटकर 2003-04 में 28.53% रह गया। **u-LFkk-fudk;** वित्त की इस प्रवृत्ति से **jkt dkskh; Lok; rRr kj** जो **jkt dkskh; fodshhdj.k** के लिये अत्यावश्यक है, में कमी आयेगी।

12.5.0 नगर पालिका परिषदों के राजस्व के स्रोत :

12.5.1 I kj.kh Ø- 12-4 में **uxj ikfydk ifj'knka** की कुल राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के राजस्व एवं बाहरी स्रोतों का योगदान दर्शाया गया है।

12.5.2 **uxj ikfyd fuxeka** से भिन्न, जिनमें कुल राजस्व प्राप्तियों में कर एवं गैर-कर दोनों राजस्वों का प्रतिशत घटा है, **uxj ikfydk ifj'knka** में यद्यपि कुल राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के कर राजस्व में कमी हुई है, उनके गैर-कर राजस्व के प्रतिशत अंश में वृद्धि हुई है। इस तथ्य के फलस्वरूप कुल स्वयं के राजस्व के कुल राजस्व प्राप्तियों में प्रतिशत अंश में **uxj ikfyd fuxeka** की तुलना में धीमी गति से कमी हुई है, जबकि उनमें यह गिरावट तेज रही है। **uxj ikfyd fuxeka** की तरह ही **uxj ikfydk ifj'knka** की बाहरी स्रोतों पर निर्भरता विश्लेषण की संपूर्ण अवधि में बढ़ी है तथा यह 1999-2000 में कुल राजस्व प्राप्तियों के 71.62% से बढ़कर 2003-04 में 74.58% हो गई, जो **uxj ikfyd fuxeka** से कुछ ही अधिक है। कुल हस्तांतरणों में अधिकांश भाग राज्य सरकार के हस्तांतरणों का है, यद्यपि कुल हस्तांतरणों में उनका प्रतिशत अंश कम हो रहा है एवं तदनु रूप केन्द्रीय हस्तांतरणों का अंश बढ़ रहा है। **u-LFlk-fudk**; वित्त की यह प्रवृत्ति राजकोषीय स्वायत्तता के विपरीत है, जो स्व-शासन की एक मूलभूत शर्त है।

12.6.0 नगर पंचायतों के राजस्व के स्रोत :

12.6.1 I kj.kh Ø- 12-5 राज्य की **uxj ipk; rka dh jktLo ikflr; ka dh foRrh; fLFkfr** प्रस्तुत करती है।

12.6.2 **uxj ipk; rka** के कुल स्वयं के राजस्व में, स्वयं के कर राजस्व के प्रतिशत में वृद्धि हुई है। **uxj ikfydk ifj'knka** के निष्पादन के विपरीत है, इसमें कुल स्वयं के राजस्व में, स्वयं के कर राजस्व के योगदान में कमी हुई है, परन्तु

राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में, स्वयं के राजस्व में, विचाराधीन अवधि में, काफी तीव्र कमी हुई है, 24.56 % से 14.59%, जिसका प्रमुख कारण गैर-कर राजस्व के अंश में कमी होना है। अध्ययन अवधि में, **uxj ipk; rka** की कुल हस्तांतरणों पर निर्भरता में तेजी से वृद्धि हुई है तथा यह 75.44% से बढ़कर राजस्व प्राप्तियों की 85.41% हो गई। इस अध्ययन से एक ध्यान देने योग्य तथ्य यह ज्ञात होता है, कि **u-LFk-fudk; ka** के तीनों वर्गों में से **uxj ipk; rka** की बाहरी स्रोतों पर निर्भरता सर्वाधिक रही है एवं उसमें तीव्र वृद्धि हो रही है।

12.7.0 राज्य की नगरीय स्थानीय निकायों की आत्म-निर्भरता की स्थिति :

12.7.1 राजस्व जुटाने के कर एवं गैर-कर स्रोतों की दक्षता एवं उत्पादकता को परखने का एक महत्वपूर्ण मापदण्ड यह है, कि सरकार के प्रत्येक स्तर पर उसके स्वयं के स्रोतों से प्राप्त राजस्व कहाँ तक उसके राजस्व व्यय की प्रतिपूर्ति कर पाते हैं। लोक वित्त के सिद्धान्त के अनुसार सरकार के राजस्व व्यय की प्रतिपूर्ति यथासंभव स्वयं के स्रोतों से प्राप्त राजस्व से होनी चाहिये। हमने पिछले प्रतिवेदन में भी राज्य सरकार के वित्त की समीक्षा करते समय इस पर बल दिया था। **u-LFk-fudk; ka** के वित्त की समीक्षा में भी इस पर समान रूप से बल देने की आवश्यकता है।

12.7.2 **vkRe&fullkjr rk fun? ka d] tks u-LFk-fudk; ka ds dg jktLo 0; ; ea Lo; a dh jktLo ikflr; ka ds vak l s Kkr gkrk g\$ foHku oxk dh u-LFk-fudk; ka ds l xak ea fHku fLFkr inf'kr djrs g\$ t\$ k fd l kj .kh Ø-12-6** से स्पष्ट होता है।

12.7.3 यद्यपि आत्म-निर्भरता का स्तर **uxj ikfyd fuxeka** में सर्वाधिक है, परन्तु समय के साथ इसमें गिरावट हुई है तथा कुछ वर्षों में तो यह गिरावट काफी तीव्र रही है। **uxj ikfydk ifj'knka** की आत्म-निर्भरता का स्तर 1999-2000 के 39.17% की तुलना में 2003-04 में बढ़कर 45.25% हो गया, परन्तु इन वर्षों के बीच की अवधि में इसमें राजस्व व्यय की मात्रा के उतार-चढ़ाव के कारण परिवर्तन होते रहे हैं। इस संबंध में **uxj ipk; rka** का निष्पादन सबसे खराब रहा है, जो 1999-2000 में अपने राजस्व व्यय के केवल 32.45% का ही पोषण

कर सकी तथा यह प्रतिशत भी घटकर 2003-04 में 27.25% रह गया। **dy feykj bl ekin.M ds vk/kkj ij fLFkr fujk'kktud ,oa fparki wkZ gA**

12.8.0 नगरीय स्थानीय निकायों के राजस्व की वार्षिक वृद्धि दर :

12.8.1 **l kj.kh Ø- 12-7 में jkT; ds u-LFkk-fudk; ka ds jktLo dh vkf r okf'kd ifr'kr of) nj** दर्शायी गयी है।

12.8.2 **Lo; a ds dj jktLo** में सबसे कम वृद्धि दर 11.54% **uxj ikfyd fuxeKa** में रही है, जबकि यह **uxj ikfydk ifj'knKa** में 11.92% तथा **uxj ipk; rKa** में सर्वाधिक 18.05% रही। इसी प्रकार गैर-कर राजस्व की औसत वार्षिक वृद्धि दर **uxj ipk; rKa** में न्यूनतम 7.95%, **uxj ipk; rKa** में 8.33% एवं **uxj ikfydk ifj'knKa** में सर्वाधिक 33.56% रही है। **dy Lo; a ds jktLo dh of) nj uxj ikfydk ifj'knKa** में सर्वाधिक रही है, जिसका मुख्य कारण गैर-कर राजस्व की उच्च वृद्धि दर है। यह ध्यान देने योग्य है, कि स्वयं के कर राजस्व एवं कुल स्वयं के राजस्व की वार्षिक औसत वृद्धि दरें, **uxj ikfyd fuxeKa** की तुलना में, **uxj ipk; rKa** में ऊँची रही है। राज्य में केन्द्र सरकार से कुल हस्तांतरणों पर निर्भरता में भी सर्वाधिक वृद्धि दर 34.62% **uxj ipk; rKa** की रही है, जबकि यह **uxj ikfydk ifj'knKa** में 31.04% एवं **uxj ikfyd fuxeKa** में 24.95% रही। **dy jktLo itflr; ka** के मामलों में भी वार्षिक औसत वृद्धि दर के आधार पर **uxj ikfyd fuxeKa** का निष्पादन सबसे कमजोर 19.84% रहा, जबकि यह **uxj ikfydk ifj'knKa** का 29.61% तथा **uxj ipk; rKa** का 30.03% था। इसका कारण **uxj ikfydk ifj'knKa** एवं **uxj ipk; rKa** में राजस्व प्राप्ति के प्रत्येक स्रोत में उच्चतर वृद्धि दरें प्राप्त करना है। राजस्व के स्वयं के समस्त स्रोत से प्राप्त राजस्व में **uxj ikfyd fuxeKa** की वृद्धि दर न्यूनतम 10.64% रही, जिसको आत्म-निर्भरता

निर्देशांक में सुधार करने तथा बाहरी स्रोत पर निर्भरता कम करने की दृष्टि से ऊपर उठाना अत्यन्त आवश्यक है। इस अध्याय में सामने आये विषयों पर हम एक अगले अध्याय में न.स्था.निकाय वित्त की पुनर्रचना संबंधी चर्चा के समय ध्यान देंगे ।

12.9.0 नगरीय स्थानीय निकायों की कर संरचना :

12.9.1 *e/; ins'k uxj fuxe vf/kfu; e* 1956 एवं *e/; ins'k uxjikfydk vf/kfu; e* 1961 को छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 नवम्बर 2000 को तत्कालीन मध्यप्रदेश राज्य के विभाजन के तुरन्त बाद अंगीकार कर लिया था। ये दोनों विधान यथा समय-समय पर संशोधित राज्य की *u-LFkk-fudk; k* को राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी सामान्य अथवा विशेष आदेशों के अध्याधीन रहते हुये, अनेक कर अधिरोपित करने के अधिकार देते हैं। न.स्था.निकाय राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से ऐसा कोई अन्य कर भी लगा सकते हैं, जिन्हें लगाने का अधिकार राज्य सरकार को है। राज्य सरकार द्वारा लगाई गयी शर्तों एवं सीमाओं के अध्याधीन रहते हुये, राज्य के *u-LFkk-fudk;* अधिनियम में उल्लिखित किसी कर अथवा शुल्क को लगा सकती है तथा पूर्व से लागू करों एवं फीस की दरों में वृद्धि कर सकती है। *dN dj vfuok; l gS rFkk vU; foosdk/khu g*

12.9.2 राज्य के *u-LFkk-fudk; k* के द्वारा अधिकांश *vfuok; l dj* लगाये जा रहे हैं, परन्तु सभी *u-LFkk-fudk; k* के द्वारा सभी *foosdk/khu dj* नहीं लगाये जा रहे हैं। *u-LFkk-fudk; k* की कर संरचना, नगरपालिक करों संबंधी विधान, कर आधार, कर राजस्व की वृद्धि, करों की संख्या एवं कर राजस्व की उत्प्लावकता, दर संरचना तथा समय-समय पर *u-LFkk-fudk; k* के द्वारा अपनी कर नीतियों में किये गये परिवर्तनों से निर्धारित होती है। *u-LFkk-fudk;* कर संरचना उच्चतर सरकारों के राजस्व आधारों की तुलना में कमजोर तथा नगरीय सेवाओं के लिये भुगतान करने वाली जनसंख्या का अति न्यून प्रतिशत होने से संकुचित मानी

जाती है। फिर भी नगरीय कर रचना नगरीय कार्यो एवं सेवाओं के लिये साधन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। संविधान संशोधन अधिनियम में अधिक ध्यान वित्तीय पुनर्रचना पर दिया गया है तथा **u-LFkk-fudk; ks** की राजकोषीय पुनर्रचना पर कम। उसमें **u-LFkk-fudk; ks** के लिये एक पृथक नगर पालिक कर सूची का प्रावधान नहीं किया गया है।

12.10.0 नगर पालिक निगमों की कर संरचना :

12.10.1 **l kj.kh Ø 12-8** में राज्य के **uxj ikfyd fuxeks** की कर संरचना प्रस्तुत की गयी हैं।

12.10.2 **l EifRr dj]** कर राजस्व का प्रमुख स्रोत है तथा यह 1999-2000 में **uxj ikfyd fuxeks** के स्वयं के कर राजस्व का 55.71% था, परन्तु क्रमशः घटकर 2003-04 में 49.39% रह गया। स्वयं के कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में उसी अवधि में सम्पत्ति कर का राजस्व 38.27% से घटकर 34.42% तथा कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत में 15.68% से कम होकर 9.82% रह गया। यह कर, कर-दाता के द्वारा स्वयं मूल्यांकन के आधार पर लगाया जाता है। अधिक राजस्व जुटाने की दृष्टि से कर दरें पुनरीक्षित नहीं की गई हैं। राजस्व में उत्प्लावकता नहीं है। इस कर के राजस्व की वार्षिक वृद्धि दर 8.63% रही है, जो सम्पत्तियों की संख्या एवं उनके वार्षिक भाड़ा-मूल्य में वृद्धि को देखते हुये अत्यन्त कम है।

12.10.3 **nl jk vfuok; l dj l efdR dj g\$ ft l ea dbz dj 'kkfey g& l Qkbz dj] idk'k , oa vflu'keu djA** इस कर से प्राप्त राजस्व, **uxj ikfyd fuxeks** के स्वयं के कुल राजस्व के 14% अथवा 15% पर स्थिर रहा है। निगमों द्वारा प्रदत्त सेवाओं के उपभोक्ता मूल्य काफी निम्न स्तर पर रहे हैं, तथा इस स्रोत से अधिक राजस्व प्राप्त करने के कोई प्रयास नहीं किये गये हैं।

12.10.4 **ty&dj** एक अन्य अनिवार्य कर हैं। इस स्रोत से प्राप्त राजस्व, कुल स्वयं के कर राजस्व के प्रतिशत में 18% से 24% के बीच रहा है। कुल राजस्व के

प्रतिशत के रूप में इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। **uxj ikfyd fuxe** की कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत में अध्ययन अवधि में यह 6.07% से घटकर 4.18% रह गया है। जल-कर से प्राप्त राजस्व लोगों को जल की आपूर्ति पर होने वाले चालू व्यय की प्रतिपूर्ति के लिये भी पर्याप्त नहीं हैं। यह एक ऐसी नगरीय सेवा है, जिसमें काफी सुधार एवं विस्तार की आवश्यकता है।

12.10.5 **rhu vfuk; l djka l s iklr dy jktLo** को देखते हुये हम पाते हैं, कि इसका प्रतिशत, जो 1999-2000 में कुल स्वयं के राजस्व का 88.66% था, घटकर 2003-04 में 85.03% रह गया। इसके संभावित कारण कम वसूली अनुपात दरों को युक्ति संगत बनाने के प्रयासों का अभाव, करों की दरों को बढ़ाने के कमजोर प्रयास तथा बड़े पैमाने पर कर चोरी हैं।

12.10.6 सम्मिलित रूप में, **foosdk/khu dj uxj ikfyd fuxe** के कुल स्वयं के कर राजस्व का बढ़ता हुआ प्रतिशत है तथा 11.34% से बढ़कर 14.97% हो गया है। इन करों की संख्या भले ही अधिक हो, परन्तु व्यक्तिगत करों से प्राप्त राजस्व अधिक नहीं प्रतीत होता। **uxj ikfyd fuxe** अब तक न लगाये गये करों को लगाकर अपने राजस्व में वृद्धि कर सकते हैं। स्वयं के कर राजस्व के अतिरिक्त दोहन की काफी संभावनायें हैं। सभी लगाये गये करों (अनिवार्य एवं विवेकाधीन कर) से प्राप्त राजस्व की औसत वार्षिक वृद्धि दर 11.54% है, जो **uxj ikfyd fuxe** के स्वयं के राजस्व में वृद्धि करने के लिये अधिक कर राजस्व जुटाने की आवश्यकता को देखते हुये अधिक नहीं है।

12.11.0 नगर पालिका परिषदों की कर संरचना :

12.11.1 **l kj.kh Ø- 12-9** में **uxj ikfydk ifj'knka dh dj l jpkuk** प्रस्तुत की गई है।

12.11.2 **uxj ikfyd fuxe** की तुलना में **uxj ikfydk ifj'knka** की कर संरचना कुछ अधिक विविधतापूर्ण है। स्वयं के कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में संपत्ति

कर 1999–2000 के 23.84% से बढ़कर 2003–04 में 42.81% हो गया। जो **uxj ikfyd fuxe** से भिन्न है, क्योंकि उनमें इस प्रतिशत में कमी हुई है। कुल स्वयं के राजस्व एवं कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में (2003–04 को छोड़कर) संपत्ति कर में वृद्धि हुई है, जबकि इसकी तुलना में **uxj ikfyd fuxe** में इसमें गिरावट हुई है। परन्तु स्वयं के कर राजस्व, कुल स्वयं के राजस्व एवं कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में **l efd r dj** के राजस्व में कमी हुई है। पुनः यहाँ भी **uxj ikfydk ifj'kn** द्वारा प्रदत्त कतिपय सेवाओं के उपभोक्ता मूल्यों में वृद्धि की समस्या है।

12.11.3 समीक्षाधीन अवधि में एक अन्य महत्वपूर्ण अनिवार्य कर—**ty&dj** से प्राप्त राजस्व में गिरावट हुई है तथा यह 31.96% से घटकर 29.60% रह गया है। इस तथ्य के बावजूद, कि नगरीय क्षेत्रों में जल की आपूर्ति आवश्यकताओं से कम हो पाती है, **uxj ikfydk ifj'kn** ने जल-कर में वृद्धि करने के कम ही प्रयास किये हैं। समग्र रूप में **uxj ikfyd fuxe** की तुलना में **uxj ikfydk ifj'kn** के अपने कुल स्वयं के कर राजस्व में अनिवार्य करों के योगदान का प्रतिशत अधिक रहा है। समीक्षाधीन अवधि में अनिवार्य करों का योगदान 78.99% से बढ़कर 92.71% हो गया। इसके विपरीत विवेकाधीन करों का योगदान 21.01% से घटकर 7.29% रह गया, जो काफी तीव्र गिरावट है। **uxj ikfydk ifj'kn** की स्वयं के कर राजस्व की वार्षिक औसत वृद्धि दर 11.92% रही है, जो **uxj ikfyd fuxe** की वृद्धि दर से कुछ ही अधिक है।

12.12.0 नगर पंचायतों की कर संरचना :

12.12.1 **l kj .kh dz 12-10** में प्रस्तुत नगर पंचायतों की कर संरचना में विभिन्न अनिवार्य करों का सापेक्षिक महत्व अन्य दो वर्गों के **u-Lfk-fuck; k** से थोड़ा भिन्न है। **l i flr dj** राजस्व का सबसे बड़ा एकमात्र स्रोत नहीं है। स्वयं के कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में इस कर से प्राप्त राजस्व 25% से 32% के बीच रहा है।

1999–2000 में स्वयं के कर राजस्व में सर्वाधिक योगदान **ty&dj** का 42.11% था, जो घटकर 2003–04 में 31.05% रह गया। राजस्व का सबसे बड़ा एकमात्र स्रोत जल-कर रहा है। कुल स्वयं के कर राजस्व में **l efd r dj** का प्रतिशत अंश यद्यपि **uxj ikfyd fuxek** के प्रतिशत से अधिक है, परन्तु यह 23.10% से घटकर 18.70% रह गया। सभी **vfuo k; l dj k** के राजस्व को समग्र रूप से देखने पर ज्ञात होता है, कि यह 1999–2000 में काफी अधिक 90.33% था, परन्तु बाद में घटकर यह 2003–04 में 75.04% रह गया।

12.12.2 उपर्युक्त के आधार पर **uxj ipk; r k** की कर संरचना की एक और विशेषता देखी जा सकती है और वह है, विवेकाधीन करों का **uxj ipk; r k** के स्वयं के कुल कर राजस्व में योगदान। इसका प्रतिशत योगदान 1999–2000 के 9.67% से बढ़कर 2003–04 में 24.96% हो गया, जो काफी तीव्र वृद्धि है। राज्य की **uxj ipk; r k** में स्वयं के कर राजस्व की वार्षिक औसत वृद्धि दर 18.05% रही, जबकि यह **uxj ikfyd fuxek** में 11.54% तथा **uxj ikfyd k ifj 'knk** में 11.92% थी। यह ध्यान देने योग्य है, कि अपने कर स्रोत से साधन जुटाने की दिशा में **uxj ipk; r k** ने अधिक प्रयास किया है।

12.12.3 हमने राज्य के विभिन्न वर्गों के **u-LFkk-fudk; k** की कर संरचना का अवलोकन किया। हम स्वीकार करते हैं, कि किसी कर संरचना में उल्लेखनीय परिवर्तन की दृष्टि से पाँच वर्ष की अवधि काफी कम होती है। हमें केवल इस बात का संकेत प्राप्त हो सकता है, कि परिवर्तन की दिशा क्या है। अनेक नये करों को शामिल कर तथा वर्तमान करों से प्राप्त राशि एवं उत्पादकता में वृद्धि कर, कर संरचना के विविधीकरण की काफी संभावनायें हैं। इन विषयों पर हम इस प्रतिवेदन के अंतिम अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे।

12.13.0 माँग के विरुद्ध संपत्ति कर का संग्रहण :

- 12.13.1 चूँकि राज्य के **u-LFkk-fudk;** कर राजस्व में सबसे बड़ा अनुपात सम्पतिकर का है तथा **u-LFkk-fudk;** कर संरचना में उसका प्रधान स्थान है, अतएव इस कर की माँग के विरुद्ध संग्रहण की स्थिति का अध्ययन करना उचित होगा। राजस्व की वसूली में आने वाली प्रमुख समस्याएँ हैं : कम मूल्यांकन, बकायों का बढ़ना, माँग के विरुद्ध राजस्व की कम वसूली, करदाताओं द्वारा कर चोरी तथा कर का भुगतान न करना, कर प्रशासन में ढिलाई तथा प्रेरकों एवं प्रतिप्रेरकों की प्रणाली का न होना। वर्तमान में हम प्रमुख रूप से एक ही महत्वपूर्ण विषय के अध्ययन पर ध्यान केन्द्रित करेंगे और वह है, इसका माँग के विरुद्ध संग्रहण, जिसे **u-LFkk-fudk;** **jkt dkskh; i'kk u** के परीक्षण का एक महत्वपूर्ण मानदण्ड माना जाता है।
- 12.13.2 आयोग ने अध्याय के इस खण्ड में न्यादर्शी **u-LFkk-fudk;** से संपतिकर माँग के विरुद्ध संग्रहण संबंधी आँकड़ें एकत्रित करने, उन्हें प्रस्तुत करने एवं उनकी व्याख्या करने का प्रयास किया है। सर्वप्रथम हम **I kj.kh Ø- 12-11** का अध्ययन करेंगे, **ftl ea 1999&2000 I s 2003&04 dh ikp o"kk dh vof/k ea jkT; ds fofHkku oxk dh u-LFkk-fudk; ka ds }kjk ekx ds fo:) bl dj ds I xg.k ds ifr'kr** की जानकारी दी गयी है।
- 12.13.3 सारणी से एक बिन्दु बिल्कुल स्पष्ट होता है, कि राज्य की तीनों वर्गों की **u-LFkk-fudk; ka** में अध्ययन अवधि में माँग की तुलना में प्रतिशत संग्रहण में सुधार हुआ है। पाँच वर्षों का सर्वाधिक औसत **uxj ikfydk ifj'knka** का रहा है तथा उसके बाद के क्रम में **uxj ikfyd fuxeka** एवं **uxj ipk; ra** हैं। परन्तु इस सुधार के बावजूद इस अनुपात में अभी और सुधार की काफी संभावनाएँ हैं।
- 12.13.4 चूँकि औसत व्यक्तिगत परिवर्तनों को छुपा लेते हैं, अतः अब हम व्यक्तिगत **u-LFkk-fudk;** संबंधी कुछ सीमा तक असमूहीकृत जानकारी प्रस्तुत करते हैं। **I kj.kh Ø- 12-12** उन **u-LFkk-fudk; ka dh I q; k crkrh g\$ ftUgkaus**

1999&2000 dh rgyuk ea 2003&04 ea vius vuj krka ea l qkkj fd; k gA

- 12.13.5 सारणी से स्पष्ट होता है, कि 80% **uxj ikfyd fuxeka** ने माँग की तुलना में अपने प्रतिशत संग्रहण में सुधार किया है, परन्तु **uxj ikfydk ifj'knka** एवं **uxj ipk; rka** में यह प्रतिशत क्रमशः 55% एवं 50% है, जो बताता है, कि इस मामले में वे अभी पिछड़ रही हैं। अभी भी बड़ी संख्या में **uxj ipk; rka** 40% तथा **uxj ikfydk ifj'knka** 35%, माँग के विरुद्ध 50% से कम संग्रहण कर रही हैं। **uxj ikfyd fuxeka** के मामले में यह बहुत कम 20% है।
- 12.13.6 व्यक्तिगत **uxj ikfyd fuxeka** के निष्पादन को देखने पर हम पाते हैं, कि जगदलपुर में 5 वर्षों में से 3 वर्षों में माँग के विरुद्ध संग्रहण 35% से कम रहा है। रायगढ़ में 5 वर्षों में से 2 वर्षों में यह संग्रहण 20% से कम रहा है। अंबिकापुर में 5 में से 5 वर्षों में संग्रहण 25% से कम रहा है।
- 12.13.7 **uxj ipk; rka** में कुरुद एवं बागबाहरा में संपूर्ण अवधि में यह अनुपात 50% से कम रहा है। खैरागढ़ में यह संपूर्ण अवधि में 20% से कम रहा है। नया बाराद्वार, सूरजपुर एवं बैकुण्ठपुर में यह पाँच में से चार वर्षों में 50% से कम रहा है।
- 12.13.8 उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है, कि विभिन्न मापदण्डों के आधार पर परीक्षण के अनुसार **uxj ikfyd fuxeka** का निष्पादन इस मामले में प्रशंसनीय रहा, कि उनमें से अधिकांश संग्रहण के कम अनुपात से उच्च अनुपात की श्रेणी में चले गये। **uxj ikfydk ifj'knka** एवं **uxj ipk; rka** में ऐसी ऊपर की ओर की गतिशीलता अत्यन्त धीमी है तथा उन्हें निष्पादन के संतोषजनक स्तर तक पहुँचने के लिये अभी काफी लम्बी दूरी तय करनी होगी।
- 12.13.9 वसूली अनुपात में सुधार के लिये आवश्यक है : सही मूल्यांकन, समय से भुगतान के लिये प्रोत्साहन, चूक करने वालों को कठोर दण्ड, यहाँ तक कि एक निश्चित समयावधि तक कर भुगतान न करने पर संबंधित की संपत्ति जप्त करना, पर्याप्त

निगरानी, कर-दाताओं द्वारा किये गये स्व-मूल्यांकन की समय-समय पर जांच करना, दोषियों के नामों का दैनिक अखबारों में प्रकाशन तथा अभी तक की कर मुक्त सम्पत्तियों को कर के दायरे में लाकर कर आधार बढ़ाना।

12.13.10 आयोग की अनुशंसा है, कि जिन **u-LFkk-fudk; ks** में लगातार तीन वर्षों तक माँग के विरुद्ध संग्रहण अनुपात 30% से कम रहे, उनकी गहन जाँच की जाय।

12.14.0 राज्य के नगरीय स्थानीय निकायों का गैर-कर राजस्व :

12.14.1 **u-LFkk-fudk; ks dh jktLo l jpk e xj&dj jktLo dh fLFkr l kj.kh**
Ø- 12-13 में प्रस्तुत की गयी है।

12.14.2 गैर-कर राजस्व के अनेक स्रोत जैसे **u-LFkk-fudk; ks** की भूमि एवं भवनों का किराया, बाजार फीस, लायसेंस फीस, ऋणों पर ब्याज, बगीचों एवं उद्यानों, खाद की बिक्री का राजस्व, भवन निर्माण फीस, कम्पाउण्डिंग फीस, दण्ड एवं अन्य मदों से प्राप्त होता है। कुल स्वयं के राजस्व में सर्वाधिक योगदान **uxj ikfydk ifj'knks** का है, जिनका 1999-2000 में गैर-कर स्रोत का योगदान 56.58% था तथा जो 2003-04 में बढ़कर 75.88% हो गया, अगले क्रम में **uxj ipk; rs** हैं, जिनका योगदान काफी अधिक, परन्तु गिरता हुआ 56.77% से 48.48% रहा है, तथा न्यूनतम योगदान **uxj ikfyd fuxe ks** का है, जो 1999-2000 में 31.29% था, घटकर 2003-04 में 30.31% रह गया। कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत में भी स्थिति लगभग ऐसी ही है, सर्वाधिक योगदान **uxj ikfydk ifj'knks** तथा सबसे कम **uxj ikfyd fuxe ks** का रहा है।

12-14-3 **o'kz 1999&2000 ,oa 2003&04 ds chp xj&dj jktLo dh of) njs l kj.kh Ø- 12-14 e n'kz h xbz g** जैसा कि पूर्व में उल्लेखित है, सर्वाधिक वृद्धि दर **uxj ikfydk ifj'knks** की रही है तथा इसके अगले क्रम में **uxj ikfyd fuxe** एवं सबसे निचले क्रम पर **uxj ipk; rs** रही हैं। स्पष्ट है, कि **uxj ipk; r** अपने गैर-कर स्रोत का दोहन वांछित सीमा तक नहीं कर रही हैं।

कतिपय नगरीय सेवाओं के लिये अधिक उपभोक्ता मूल्यों के रूप में इसकी काफी संभावनायें हैं।

12-14-4 सारणी क्र. 12.15, 12.16 एवं 12.17 में नगर पालिक निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के कुल गैर-कर राजस्व में गैर-कर राजस्व के व्यक्तिगत मदों के अंश को दर्शाया गया है। **uxj ikfydk ifj'knk** के संबंध में भूमि एवं भवनों का किराया एवं फीस का योगदान न केवल कम है, वरन् उसमें गिरावट हो रही है।

12.15.0 नगरीय स्थानीय निकायों को राशियों का हस्तांतरण (राजस्व के बाहरी स्रोत) :

12.15.1 अपने स्वयं के साधनों को जुटाने के मामलों में राज्य की **u-LFkk-fudk; k** के कमजोर निष्पादन के कारण उनकी राज्य एवं केन्द्र सरकार से प्राप्त हस्तांतरणों पर निर्भरता में वृद्धि हुई है। **uxj ipk; rk** की कुल राजस्व प्राप्तियों में कुल हस्तांतरणों का अंश 1999-2000 में 75.44% था, जो बढ़कर 2003-04 में 85.41% हो गया। यह सर्वाधिक प्रतिशत है तथा अगले क्रम पर **uxj ikfydk ifj'knk** जिनमें उसी अवधि में यह अंश 71.62% से बढ़कर 74.58% तथा **uxj ikfyd fuxe]** जिनमें यह 59.02% से बढ़कर 71.47% हो गया। यह एक स्वस्थ प्रवृत्ति नहीं है। मोटे तौर पर कुल राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के राजस्व का कम प्रतिशत **u-LFkk-fudk; k** की कर एवं गैर-कर स्रोत से अपने स्वयं के साधन जुटाने की अनिच्छा है। इसका एक कारण राज्य एवं केन्द्र सरकार से बढ़ते हुये हस्तांतरणों का हतोत्साहित करने वाला प्रभाव भी हो सकता है। उनके स्वयं के साधन राजस्व के उनके आंतरिक स्रोत के दोहन की अनिच्छा, कमजोर कर आधार, कर वसूली में ढिलाई, तथा बड़े पैमाने पर कर चोरी के कारण अत्यन्त बाधित रहते हैं।

12.15.2 हमने इस अध्याय के एक अन्य खण्ड में देखा है, कि **u-LFkk-fudk; k** के **vkRe& fulkjrk** स्तर में गिरावट हो रही है। उनके स्वयं के साधन, उनके राजस्व व्यय के घटते हुये अनुपात का वित्त पोषण कर रहे हैं।

- 12.15.3 **u-LFkk-fudk; ka** के हस्तांतरणों की संरचना का विश्लेषण करते समय हमें एक महत्वपूर्ण तथ्य ज्ञात हुआ, कि राज्य सरकार से होने वाले कुल हस्तांतरणों में सहायता अनुदान का अंश अत्यन्त कम है तथा काफी बड़ा भाग **u-LFkk-fudk; ka** द्वारा कतिपय करों जैसे चुंगी एवं यात्री कर को समाप्त किये जाने के लिये क्षतिपूर्ति के रूप में तथा अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क एवं कुछ अन्य करों को उन्हें सौंपे जाने के रूप में हैं। **I kj .kh Ø- 12-18 में jkT; dh u-LFkk-fudk; ka dks gkus okys jkT; I jdkj ds gLrkj .kka dh I jpuk** को प्रस्तुत किया गया है।
- 12.15.4 सारणी से ज्ञात होता है, कि समस्त **u-LFkk-fudk; ka** का राज्य सरकार के हस्तांतरणों में कतिपय करों की क्षतिपूर्ति एवं सौंपे गये राजस्व के रूप में अंश घटता जा रहा है तथा सहायता अनुदान के रूप में बढ़ता जा रहा है। वास्तव में सहायता अनुदान तथा क्षतिपूर्ति एवं सौंपे गये राजस्व के रूप में किये गये हस्तांतरणों को एक साथ नहीं रखना चाहिये तथा पृथक-पृथक मदों में प्रदर्शित करना चाहिये, क्योंकि दोनों के भिन्न उद्देश्य होते हैं तथा भिन्न-भिन्न सिद्धांतों से नियंत्रित होते हैं। हम स्वीकार करते हैं, कि सहायता अनुदानों पर निर्भरता, राज्य सरकार के हस्तक्षेप की संभावनाओं में वृद्धि के कारण **u-LFkk-fudk; ka** की स्वायत्तता को कम कर सकती है और फिजूलखर्ची को प्रोत्साहित कर सकती है। इसके बावजूद संघीय व्यवस्था में सहायता अनुदानों की प्रणाली अब स्थापित हो चुकी है। आज हम स्थानीय वित्त की कल्पना, सरकार के उच्च स्तरों से निचले स्तरों को अनुदान, के बिना नहीं कर सकते। इस विषय पर हम पूर्व में ही संघीय वित्त एवं उसमें स्थानीय निकायों की भूमिका, संबंधी अध्याय में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं।
- 12.15.5 सहायता अनुदानों संबंधी नीति बनाते समय स्थानीय निकायों की आवश्यकताओं पर ध्यान देना जरूरी है। जनसंख्या को आवश्यकताओं का एक अशोधित संकेतक माना जा सकता है, परन्तु साथ ही अन्य कारकों की अवहेलना नहीं की

जा सकती। **el xD** ने अनुदान फार्मूला में कर प्रयास पर काफी बल दिया है। कर प्रयास को कुल राजस्व में, जुटाये गये कर राजस्व के अनुपात से मापा जा सकता है अथवा प्रतिव्यक्ति कर राजस्व के मानदण्ड से परीक्षण किया जा सकता है। इस मानदण्ड से अनुदान के कारण कर-प्रयास में ढिलाई की संभावना को कम किया जा सकता है।

12.15.6 यदि अनुदान का उद्देश्य किसी विशेष गतिविधि को बढ़ावा देना हो, तो सशर्त अनुदान अधिक उचित होगा, परन्तु यदि उसकी मंशा सामान्य उद्देश्यों के लिये राशियों का हस्तांतरण है, तब बिना शर्त अनुदान दिये जाने चाहिये। इस प्रकार का अनुदान **u-LFkk-fudk; ka** को अपनी राशियों के प्रबंधन में स्व-निर्णय की अधिक छूट देता है। **tgk; rd l lko gk; l keW; mnns'kh; vuqkuka dks izfr'khy cukuk pkfg; } ftlls fofkkUu oxk; ds chp {krt vl ekurkva dks de fd; k tk l dA**

12.15.7 अनुशंसा की जाती है, कि राज्य सरकार सहायता अनुदानों के माध्यम से हस्तांतरणों की एक व्यवस्थित नीति बनाये, जिससे इस माध्यम का उपयोग **u-LFkk-fudk; ka** को अपने कार्यों के निष्पादन में सहायता देने, क्षेत्रीय असमानतायें कम करने तथा उन्हें अधिकतम संभावित स्तर तक अपने स्वयं के साधनों के दोहन हेतु प्रोत्साहित करने के लिये किया जा सके। सहायता अनुदान प्रणाली सरलता, पूर्वानुमान क्षमता एवं स्वायत्तता बनाये रखने के मानदण्डों के अनुरूप होनी चाहिये। मानदण्ड वस्तु-परक एवं मापनीय हों तथा मुद्रास्फीति के प्रभावों को कम करने में सक्षम हो। **vuqku izkkyh ea vuqkuka ds mi ; ksx dh mfpr ekulVfjx , oa l eh{kks ds fy; s l efpr 0; oLFkk dk i ko/kku gkuk pkfg; A**

12.16.0 सौंपा गया राजस्व :

12.16.1 अनुरूपता के सिद्धांत (Principle of congruence) के अनुसार, जितना ही कोई कर-आधार कम गतिशील होगा तथा जितना ही कर आधार एवं स्वामित्व का स्थानिक केन्द्रीयकरण मजबूत होगा, उतना ही वह कर सरकार के निचले स्तर के लिये अधिक उपयुक्त होगा। स्थानीय निकायों द्वारा लगाये जाने वाले करों में ऐसे कर शामिल करना चाहिये, जो वस्तुओं एवं सेवाओं के स्थानीय उपभोग, स्थानीय रोजगार एवं स्थानीय व्यापार पर आधारित हो, परन्तु स्थानीय अर्थव्यवस्था को क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ संयोजन से इस सिद्धांत के अपवाद भी हो सकते हैं। कतिपय ऐसे कर हैं, जो नियमानुसार **u-LFkk-fudk; k** के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, फिर भी उन्हें बेहतर वसूली अथवा कतिपय ऐतिहासिक कारणों से राज्य सरकार द्वारा लगाया एवं वसूला जाता है तथा जिनकी शुद्ध प्राप्तियों को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से **^l kš s x; s jktLo^** मद के अंतर्गत स्थानीय निकायों को सौंपा जाता है। राज्य सरकार से **u-LFkk-fudk; k** को होने वाले ऐसे हस्तांतरणों की प्रकृति उस हानि की क्षतिपूर्ति करने की है, जो उस राजस्व को खोने के कारण होती है, जो **u-LFkk-fudk; k** को प्राप्त होता, यदि वे स्वयं ये कर लगाते। ऐसे करों से प्राप्त राजस्व के आबंटन का आधार राजस्व वसूली, वसूली लागत निकाल कर, होना चाहिये। कुछ ऐसे भी कर हैं, जिन्हें राज्य ने अपने हित में विलोपित कर दिया है तथा जिनके लिये भी राज्य **u-LFkk-fudk; k** को क्षतिपूर्ति देता है।

12.16.2 वास्तव में राज्य सरकार से **u-LFkk-fudk; k** को **{kfrī frz , oa l kš s x; s jktLo** के रूप में हस्तांतरित राशियों को सहायता अनुदान नहीं मानना चाहिये, क्योंकि ये हस्तांतरण **l gk; rk vuqkuk** को विनियमित करने वाले सिद्धांतों एवं मानदण्डों के अनुरूप नहीं होते।

12-16-3 **bl l nHkZ ea vk; ksx dh vuqka k g\$ fd , d vkj dj] eukjatu dj] tksoržku ea jkT; l jdkj }kjk yxk; k , oa ol yk tkrk g\$ ijUrq tks mfpr : i l s LFkkuh; djka ds {k= ea vkrk g\$ dks ^l kš s x; s**

jktLo^m ds oxl ea 'kkfey djuk pkfg; A ; g , d fo'kq) LFkkuh; dj g^m ml dk dj vk/kkj LFkkuh; g^m jkT; I jdkj bl s yxkuk tkjh j[k^q ijUrq ol nyh 0; ; fudky dj ml dh 'kq) i kflr; k^a dks iæqkr% ol nyh ds vk/kkj ij u-LFkk-fudk; k^a dks vkcfVr dj^m

12.17.0 राज्य के नगरीय स्थानीय निकायों को राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से हस्तांतरण :

12.17.1 अब हम राज्य एवं केन्द्र सरकार से राज्य के विभिन्न वर्गों के *u-LFkk-fudk; k^a* को *gLrk^{rj}.k^a* संबंधी आँकड़ों का अध्ययन, उन्हें *nks oxk^z e^q I gk; rk vuq^{ku} , oa {kfrir^rz rFkk I k^a k x; k jktLo e^q folkk^{ftr} dj* करेंगे। प्रथमतः हम *uxj ikfyd fuxe^k* को लेंगे।

12.17.2 I kj.kh Ø- 12-19] 12-20 , oa 12-21 स्पष्ट करती हैं, कि *jkT; ds u-LFkk-fudk; k^a dh jktLo i kflr; k^a ea gLrk^{rj}.k^a dk v^ak c<+jgk g^s* तथा यह 1999–2000 से 2003–04 के बीच *uxj ikfyd fuxe^k* के मामलों में 59.02% से बढ़कर 71.47%, *uxj ikfydk ifj'kn^k* में 71.62% से 74.58% एवं *uxj ipk; rk^a* में 75.44% से 85.41% हो गया। हस्तांतरणों का बड़ा भाग राज्य सरकार से हुआ है तथा उसमें भी प्रारंभिक वर्षों में कतिपय करों के लिये क्षतिपूर्ति एवं सौंपे गये राजस्व के रूप में अधिक हुआ है। इसके दूसरी ओर अधिकांश केन्द्रीय हस्तांतरण सहायता अनुदान, मूलभूत अनुदान, सामान्य उद्देशीय एवं विशिष्ट दोनों के रूप में *dsfo-vk-* की अनुशंसाओं के आधार पर हुये हैं *uxj ikfyd fuxe^k dks NkM/dj^{1/2}*

12.18.0 प्रति-व्यक्ति कर एवं गैर-कर राजस्व तथा हस्तांतरण :

12.18.1 I kj.kh Ø- 12-22 में *ifr 0; fDr dj , oa x^f&dj jktLo] Lo; a dk jktLo , oady gLrk^{rj}.k* दिये गये हैं। सारणी दर्शाती है, कि *uxj ikfydk ifj'kn^k* एवं *uxj ipk; rk^a* की तुलना में, *uxj ikfyd fuxe^k* में प्रति व्यक्ति कर राजस्व सर्वाधिक है तथा सर्वाधिक दर से उसमें वृद्धि *uxj ipk; rk^a* में हो रही है,

परन्तु *ifr 0; fDr Lo; a ds jktLo* की वृद्धि दर *uxj ikfydk ifj"knk* में राज्य के अन्य दो वर्गों की *u-LFkk-fudk; k* की तुलना में सर्वाधिक है। इसका संभावित कारण *uxj ikfydk ifj'knk* में अधिक प्रति व्यक्ति गैर-कर राजस्व है। *uxj ikfyd fuxe* का प्रतिव्यक्ति गैर-कर राजस्व रुपये 42.48 से बढ़कर रुपये 53.87 *uxj ipk; rka* का रुपये 41.45 से रुपये 54.78 तथा *uxj ikfydk ifj"knk* में सर्वाधिक रुपये 50.28 से बढ़कर रुपये 152.79 हुआ है। प्रति व्यक्ति कुल हस्तांतरणों में सर्वाधिक वृद्धि *uxj ipk; rka* में हुई, जहाँ ये वृद्धि 1999-2000 पर 2003-04 में 194.98% थी तथा इसके बाद के क्रम में *uxj ikfydk ifj"kn* एवं *uxj ikfyd fuxe* थे। सारणी से एक रोचक तथ्य यह ज्ञात होता है, कि प्रतिव्यक्ति राजस्व के सभी संकेतकों की वृद्धि दर (कर राजस्व को छोड़कर) राज्य की अन्य दो वर्गों के *u-LFkk-fudk; k* की तुलना में, *uxj ikfyd fuxe* में न्यूनतम रही है।

12.19.0 सारांश :

12.19.1 राज्य के *u-LFkk-fudk; k* के वित्त के विविध पहलुओं की समीक्षा के पश्चात् इस अध्ययन से उत्पन्न प्रमुख बिन्दुओं का संक्षिप्त उल्लेख किया जा सकता है। ये बिन्दु निम्नानुसार हैं :

- (i) अध्ययन 100% *uxj ikfyd fuxe*, 71.43% *uxj ikfydk ifj"kn* तथा 27.78% *uxj ipk; rka* पर आधारित है। एक अन्य प्रकार से देखा जाय, तो इस अध्ययन का आधार राज्य के कुल *u-LFkk-fudk; k* का 45.45% नगरीय निकायें हैं, जिनकी *tul q; k dy u-LFkk-fudk; k* की जनसंख्या का 82.56% है। इस प्रकार यह *u-LFkk-fudk; k* की संख्या तथा उनकी जनसंख्या दोनों दृष्टिकोणों से समग्र के प्रतिनिधित्व के लिये पर्याप्त है।
- (ii) *u-LFkk-fudk; k* को दो स्रोतों से राजस्व प्राप्ति होता है, (अ) *Lo; a ds vFkok vkrfjd l k/ku* तथा (ब) *jkT; , oa dshz l jdkj l s gLrkj.k ds : i ea ckgh l kr*। राज्य के *u-LFkk-fudk; k* के

वित्त का एक चिंताजनक पहलू यह है, *fd l Hkh oxkz ds u-LFkk-fudk; ka ds dgy Lo; a ds l k/ku ?kV jgs g* ये गिरावट *uxj ikfyd fuxe* में 1999–2000 के कुल राजस्व प्राप्तियों के 40.98% से कम होकर 2003–04 में 28.53%, *uxj ikfydk ifj"knk* में 28.38% से 25.42% एवं *uxj ipk; rka* में 24.56% से 14.59% तक देखी गयी। इस कमी का प्रमुख कारण कुल राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के कर राजस्व के अंश में तीव्र गिरावट का होना है। कुल स्वयं की राजस्व प्राप्तियों के दूसरे घटक, गैर-कर राजस्व में भी *uxj ikfyd fuxe* एवं *uxj ipk; rka* में कमी हुई है, परन्तु *uxj ikfydk ifj"knk* के कुल राजस्व प्राप्तियों में गैर-कर राजस्व के प्रतिशत अंश में वृद्धि हुई। निष्कर्ष के तौर कहा जा सकता है, कि राज्य के सभी वर्गों के *u-LFkk-fudk; ka* में स्वयं के साधनों में गिरावट हुई है, तथा यह गिरावट *uxj ikfyd fuxe* एवं *uxj ipk; rka* में अधिक तीव्र हुई है। यह एक स्वस्थ विकास नहीं है। *Lo; a ds l k/ku ds LoLFk fodkl l s u-LFkk-fudk; ka dks viuh jkt dks'kh; Lok; rRrk l qkkjus ea l gk; rk feyskh*

- (iii) *dgy jktLo ikflr; ka ea Lo; a ds jktLo l k/ku ds ?kVrs gq s ifr'kr ds dkj.k l e; ds l kFk&l kFk u-LFkk-fudk; ka dh ckjgh l kr ij fullkrk ea of) gpz g* *uxj ipk; rka* के मामलों में यह निर्भरता काफी अधिक है, इन्होंने अपनी कुल राजस्व प्राप्तियों का 85.41% बाहरी स्रोतों से प्राप्त किया। इनके अगले क्रम में *uxj ikfydk ifj"kn* 74.58% तथा *uxj ikfyd fuxe* 71.47% रहे। अधिक चिन्ता की बात यह है, कि यह निर्भरता केवल अधिक ही नहीं है, वरन् समय के साथ बढ़ रही है। संघीय व्यवस्था में सरकार के उच्च स्तरों से निम्न स्तरों को जाने वाले ऐसे हस्तांतरणों का एक उद्देश्य, उन्हें अधिक आंतरिक साधन जुटाने के लिये प्रेरित करना होता है, परन्तु दुर्भाग्यवश

अधिकांश राज्यों की संघीय वित्त व्यवस्था **u-LFkk-fudk; ka** को अपने स्वयं के साधन जुटाने के लिये प्रेरित करने के इस कार्य को निष्पादित नहीं कर रही हैं। इसके विपरीत हमें राज्य एवं केन्द्र सरकार पर **u-LFkk-fudk; ka** की बढ़ती हुई निर्भरता की दिशा में उल्टी प्रवृत्ति देखने को मिल रही है।

- (iv) राज्य एवं केन्द्र सरकार से **u-LFkk-fudk; ka** को हस्तांतरणों की मात्रा का विश्लेषण करने पर हम पाते हैं, **fd i kj hkd o"kk ea jkT; I jdkj ds dgy gLrk rj. ka ea I gk; rk vuqku dk vuqkr vR; Ur fuEu g\$ vf/kdkk gLrk rj. k u-LFkk-fudk; ka dks dfri ; I eklr fd; s x; s enka ds fy; s {kfri frZ , oa dN djka I s iklr jktLo dks I ka s tkus ds : i eaf d; s tkrs g\$** जहाँ तक केन्द्र सरकार के हस्तांतरणों का संबंध है, अधिकांश हस्तांतरण सामान्य उद्देशीय एवं विशिष्ट अनुदानों, विशेषतया मूलभूत सुविधाओं में सुधार के लिये तथा **dsfo-vk-** की अनुशांसाओं पर आधारित हस्तांतरणों के रूप में होते हैं। **I gk; rk vuqku , oa {kfri frZ rFkk I ka s x; s jktLo bu nksuka dks , d I kFk feyk dj ugha ns[kuk pkfg; } D; kfd nksuka ds mnns ; , oa fofu; eu ds fl)kr i Fkd&i Fkd gkrs g\$**
- (v) **jkt; ds u-LFkk-fudk; ka dh jktLo ds ckgjh I kr ij c<rh fullkjrk ds dkj. k I e; ds I kFk&I kFk vkRefullkjrk fun\$ kkd ea fxjkoV vkbZ g\$ %uxj ikfydk ifj"knka dks NkM&dj ½** तथा उसके फलस्वरूप उनकी राजकोषीय स्वायत्तता, जो विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया की एक आवश्यक शर्त है, में कमी आई है।
- (vi) यद्यपि **u-LFkk-fudk; ka** की कर संरचना के विश्लेषण के लिये पाँच वर्ष की अवधि काफी कम होती है, किन्तु यह अल्पावधि भी **budh dj I jpuk ds fofu/khdj. k dk dkbZ I dsr ugha nrh rFkk og yxkrkj dgy FkkM\$ I s vfuo; Z djka I s gh i hkkfor g\$**

- (vii) ***dj jktLo dh ok'kd vl r of) nj uxj ikfyd fuxe*** के संबंध में 11.54%, ***uxj ikfydk ifj'kn*** में 11.92% तथा ***uxj ipk; r*** में 18.05% रही है। कर राजस्व में वृद्धि की निम्न दरों के संभावित कारण हैं, कमजोर कर आधार, लम्बे समय से अधिकांश करों की दरों में कोई वृद्धि नहीं किया जाना, कर वसूली में ढिलाई, बड़ी मात्रा में कर चोरी, तथा कर संरचना के विविधीकरण की दिशा में प्रयासों का अभाव।
- (viii) ***xj&dj jktLo*** जो स्वयं के राजस्व का एक अन्य स्रोत है, के कुल स्वयं के राजस्व में अंश के मामलों में, केवल ***uxj ikfydk ifj'kn*** में ही इसमें वृद्धि पाई गयी, तथा शेष दोनों वर्गों के ***u-Lfk-fudk; k*** में इसमें कमी हुई। गैर-कर राजस्व में ***uxj ikfydk ifj'kn*** में 33.56% की वार्षिक औसत वृद्धि हुई, जबकि यह ***uxj ikfyd fuxe*** में 8.33% तथा ***uxj ipk; r*** में सबसे कम 7.95% हुई। अधिकांश गैर-कर राजस्व दो मदों से प्राप्त होता है – विभिन्न प्रकार की फीस तथा भूमि एवं भवनों का किराया। ***jktLo dsbl l kr dk vlkh rd iwl nkgu ugha fd; k x; k g*** गैर-कर राजस्व के कुछ मदों से काफी राजस्व जुटाने की संभावनायें हैं। कई ऐसे नये उभरते हुये क्षेत्र हैं, जिनसे राजस्व जुटाया जा सकता है।
- (ix) कर एवं गैर-कर संरचनाओं में पर्याप्त विविधता दृष्टिगोचर नहीं हुई, जिसके परिणामस्वरूप ***Lo;a dh jktLo ikflr; k*** की वृद्धि काफी धीमी रही है। ***vl r of) nj uxj ikfyd fuxe*** में 10.64%, ***uxj ipk; r*** में 12.51% एवं 25.92% ***uxj ikfydk ifj'kn*** में रही है। ***uxj ikfydk ifj'kn*** के स्वयं की राजस्व प्राप्तियों के मामलों में बेहतर निष्पादन का कारण उनके गैर-कर राजस्व की अधिक वृद्धि दर है।

- (x) *u-LFkk-fudk; k ds jkt dks'kh; fu"iknu dk , d vU; l dsrdj*
जिसका सामान्यतयः उपयोग किया जाता है, वह है प्रति व्यक्ति कर एवं
गैर-कर राजस्व की वृद्धि। *ifr&0; fDr dj jktLo* 2003-04 में
सर्वाधिक *uxj ikfyd fuxe* में रहा है, रुपये 123.85 तथा इसकी
तुलना में यह *uxj ipk; rka* में रुपये 58.21 तथा *uxj ikfydk*
ifj'knka में रुपये 48.56 रहा है। प्रति व्यक्ति गैर-कर राजस्व में
सर्वाधिक वृद्धि *uxj ikfydk ifj'knka e gplz g\$ ftuea ifr0; fDr*
Lo; adh jktLo ikflr; k; Hkh l okk/kd jgh gSrFkk bl dk izqk
dkj.k vf/kd ifr 0; fDr xj&dj jktLo g

12.20.0 नगरीय स्थानीय निकाय व्यय :

- 12.20.1 पारम्परिक रूप से लोक वित्त में पहले व्यय पर ध्यान दिया जाता है और बाद में व्यय के समकक्ष राजस्व सुनिश्चित करने के लिये करों एवं शुल्कों का मूल्यांकन किया जाता है। हमने परम्परागत दृष्टिकोण से अलग हटकर पहले राजस्व पक्ष पर चर्चा की है। अध्याय के इस भाग में हम *u-LFkk-fudk; k* द्वारा प्रदत्त आँकड़ों के आधार पर इनके व्यय के विभिन्न स्वरूपों की चर्चा करेंगे।
- 12.20.2 *u-LFkk-fudk;* व्यय का निहित उद्देश्य होता है – जल आपूर्ति, सड़कें, मार्ग प्रकाश, नाली, निकासी, बगीचों एवं उद्यानों जैसी मूलभूत सुविधायें एवं पर्याप्त अधोसंरचना को न केवल स्थानीय जनसंख्या को वरन् उन सभी को भी उपलब्ध कराना, जिनके नगरीय क्षेत्रों से अनेक प्रकार के संबंध हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को खोल दिये जाने से भारतीय नगर औद्योगिक एवं आर्थिक क्रियाओं के केन्द्र तथा घरेलू एवं विदेशी पूँजी के आकर्षक गंतव्य बन रहे हैं। इसके फलस्वरूप नगरीय शासन विशेषतया बड़े नगरों की सरकारों के लिये यह अत्यावश्यक हो गया है, कि वे न केवल स्थानीय नागरिकों को वरन् उन नगरीय व्यक्तियों को भी बेहतर अधोसंरचना उपलब्ध कराये, जो उन नगरीय क्षेत्रों से संबंध रखना चाहते हैं।

12.20.3 संविधान संशोधन की *xixoha vuq ph* में *u-LFkk-fudk; ka* के लिये उन पारम्परिक कार्यों की तुलना में जो ऐतिहासिक रूप से विकसित हुये थे, अधिक विस्तृत कार्य क्षेत्र की रचना की है। नये कार्यों में शामिल हैं – आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, गरीबी निवारण, नगरीय नियोजन, नगरीय वानिकी तथा पर्यावरण सुरक्षा। *vuq ph xixoha* में जिन 18 कार्यों को *u-LFkk-fudk; ka* को सौंपा गया है, उनमें से 14 ऐसे हैं, जिनका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध *i ; kbj.kh; inlk.k* को रोकने से है। हमारे नजदीकी पर्यावरण में जहाँ हम पैदा हुये हैं, सांस लेते हैं, निवास करते हैं, कार्य करते हैं एवं मृत्यु का वरण करते हैं, काफी सुधार हो सकता है, यदि *u-LFkk-fudk; ka* एवं *iajk-l LFkk; a* अपने कार्यों को बेहतर कार्यात्मक प्रबंधन के साथ समन्वित रूप से निष्पादित करें। राज्य के *u-LFkk-fudk; ka* ने अभी तक संविधान संशोधन में प्रकल्पित नई भूमिका निभाना प्रारंभ नहीं किया है। *vuq v) jdkjh ikf/kdj.k buds dfri ; dk; ka ds fu "iknu dsek; e l s u-LFkk-fudk; ka ds U; k; kspr vf/kdkj {ks= dk vfrØe.k dj jgsg*

12.20.4 व्यय के स्तर एवं मात्रा को सामान्यतया प्रदान की गयी सेवाओं के स्तर का संकेतक माना जाता है, भले ही दोनों के बीच पूर्ण अनुरूपता न पायी जाय, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है, कि परिणाम व्यय के समरूप ही हों। तीव्र नगरीय विस्तार एवं नगरीय विकास के निम्न स्तर के कारण कस्बों एवं शहरों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता में गंभीर कमी निर्मित हो गयी है। अधोसंरचना एवं सेवाओं की उपलब्धता संबंधी दीर्घकालीन आँकड़ों की उपलब्धता के अभाव में नगरीय क्षेत्रों में मूलभूत सेवाओं की उपलब्धता के स्तर को स्पष्ट करना संभव नहीं है, यद्यपि जनगणना प्रतिवेदन तथा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) अत्यधिक अंतराल में इन सेवाओं की उपलब्धता संबंधी कुछ आँकड़े उपलब्ध कराते हैं।

12.20.5 छत्तीसगढ़ छोटे कस्बों का राज्य है, जिनमें मूलभूत सेवायें अपर्याप्त एवं कमजोर हैं। उनके भीतरी क्षेत्र प्रधानतया कृषि क्षेत्र हैं। अधिकांश कस्बे मण्डियाँ हैं, जिन्हें अपनी-अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं से संबंध बढ़ाने एवं उन्हें मजबूत करने के

लिये बेहतर अधो-संरचना की आवश्यकता है। इन कस्बों के वित्तीय एवं प्रशासकीय सशक्तीकरण की आवश्यकता है। राज्य में औद्योगिक विकास की काफी संभावनायें हैं, विशेषकर उन उद्योगों की जो प्राकृतिक साधनों पर आधारित होते हैं। आवश्यकता है, उसके शहरो एवं कस्बों के न केवल उनकी वर्तमान जरूरतें पूरी करने की, वरन् भविष्य की आवश्यकताओं के लिये भी नियोजित विकास की। ग्रामीण एवं नगरीय विकास के बीच दोहरापन समाप्त करना होगा तथा उसके स्थान पर दोनों के समन्वित विकास के प्रयास करने होंगे।

12.20.6 न.स्था.निकायों के व्यय को मोटे तौर पर दो वर्गों में बाँटा जाता है, राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय। राजस्व व्यय प्रमुखतः निम्न मदों पर किया जाता है, सामान्य प्रशासन— जिसमें मजदूरी, वेतन तथा पेंशन शामिल होते हैं, सार्वजनिक सुरक्षा— जिसमें मार्ग प्रकाश एवं अग्निशमन शामिल होते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सफाई— जिसमें पेयजल आपूर्ति, निकासी एवं सफाई, कचरा निपटान, सड़कों, पार्कों एवं उद्यानों की सफाई, अस्पताल, औषधालय तथा छूत से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम शामिल होती है। राजस्व व्यय में सार्वजनिक निर्माण एवं उनका अनुरक्षण, शिक्षा (अधिकांशतः प्राथमिक शिक्षा) तथा ब्याज भुगतान भी शामिल होते हैं। पूँजीगत व्यय में सड़कों, पुलियाओं एवं पुलों, बाजारों, बस स्टेण्ड एवं निकासी व्यवस्था का निर्माण तथा यंत्रों, वाहनों इत्यादि की खरीद शामिल होती है। *u-Lfk-fuck*; स्तर पर अनेक बार राजस्व एवं पूँजीगत व्यय में अंतर बहुत धुंधला होता है। इनका अधिकांश भाग राजस्व व्यय की प्रकृति का होता है, हालांकि हाल के वर्षों में पूँजीगत व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति देखने को मिली है।

12.20.7 *vuqylud Ø 12-4] 12-5] ,oa 12-6 में 1999&2000 I s 2003&04 dh ikp o"kkz dh vof/k ds fy; s jktLo 0; ; dk foLr'r foj.k* प्रस्तुत किया गया है। सारणियों से स्पष्ट होता है, कि *uxj ikfyd fuxeas ds dy 0; ; ds ifr'kr ds : i eamudk jktLo 0; ;* 1999—2000 के 72.29% से बढ़कर 2001—02 में 78.86% हो गया, परन्तु अगले दो वर्षों में घटकर 2003—04

में 60.26% रह गया। *uxj ikfydk ifj'knk* के मामलों में राजस्व व्यय के अंश में 1999–2000 के 76.30% के स्तर से निरंतर गिरावट हुई है तथा तदनुरूप *dy 0; ; ea ipthxr 0; ;* के अंश में लगातार वृद्धि। *bl h izdkj uxj ipk; rk ds jktLo 0; ; ea dy 0; ; ds ifr'kr ea fujarj deh gpl gñ jkT; ea dLck , oa 'kjka ds Hkfo"; ds fodkl dh nñV l s dy 0; ; ea ipthxr 0; ; ds vuqkr ea of) gkuk , d LoLFk fodkl gñ ijUrq uxjh; l okka ds ink; , oa v?kkjd puk ds j[k&j[kko ds fy; s , d fuf'pr Lrj dk jktLo 0; ; Hkh vR; ko'; d gñ*

12.21.0 नगरीय स्थानीय निकायों के राजस्व व्यय का आबंटन :

12.21.1 यद्यपि हम यह दोहराना चाहेंगे, कि केवल अधिक राशियों का आबंटन ही पर्याप्त नहीं है, फिर भी यह देखना आवश्यक है, कि राज्य के *u-LFkk-fudk;* किस प्रकार अपने राजस्व व्यय को उनके द्वारा प्रदत्त विभिन्न सेवाओं के बीच आबंटित करते हैं। राशियों के आबंटन के साथ-साथ उनके सर्वोत्तम उपयोग, उचित प्रबंधन एवं कुशल प्रदाय प्रक्रिया की भी आवश्यकता है।

12.21.2 *l kj .kh Ø- 12-23* में *l ekfgr rhu l kjf.k; ka ds l s/ ea fofHku oxkz dh u-LFkk-fudk; ka ds }kjv vi us fofok dk; kz ds fu"i knu ea jkf'k; ka dk mi ; ks fdl izdkj fd; k x; kj ; g tkudkjh nh x; h gñ*

12.21.3 यद्यपि *0; fDrxr u-LFkk-fudk;* अपने *jktLo 0; ;* को विभिन्न मदों में अपनी प्राथमिकताओं एवं आवश्यकताओं के अनुसार आबंटित करते होंगे, संदर्भित सारणियों से विभिन्न वर्गों की *u-LFkk-fudk; ka* के राजस्व व्यय की सामान्य प्रवृत्तियाँ स्पष्ट होती हैं। *uxj ikfyd fuxe* में राजस्व व्यय का सर्वाधिक अंश *l kekl; iz'kkl u* को गया है, परन्तु उसके प्रतिशत में 1999–2000 के 53.03% की तुलना में 2002–03 तक कमी हुई तथा वह 28.87% रह गया तथा पुनः बढ़कर 2003–04 में 42.64% हो गया। अन्य दो वर्गों की *u-LFkk-fudk; ka* में इस

मद पर होने वाले व्यय का कुल राजस्व व्यय से प्रतिशत लगभग एक सा रहा है तथा यह उसी अवधि में 31.21% एवं 34.48% से घटकर लगभग 22.43% एवं 22.39% रह गया। अपने बड़े आकार एवं जनसंख्या के कारण **uxj ikfyd fuxe** को अपने कार्यों के निष्पादन हेतु अधिक स्टाफ को रखना पड़ता है, फलस्वरूप उन्हें मजदूरी एवं वेतन तथा पेंशनों पर अपने राजस्व व्यय का बड़ा अनुपात व्यय करना पड़ता है। परन्तु एक संतोषजनक तथ्य यह है, कि समय के साथ राजस्व व्यय के इस मद का प्रतिशत अंश कम हो रहा है।

12.21.4 यह आश्चर्यजनक है, कि **uxj ikfyd fuxe** में **I kołt fud I j{lk** पर राजस्व व्यय का प्रतिशत अंश **u-LFkk-fudk; k** के अन्य दो वर्गों की तुलना में कम रहा है। जहाँ **uxj ipk; r** इस मद के समस्त आबंटन को मार्ग प्रकाश पर व्यय कर रही हैं, वहीं अन्य दो वर्ग मार्ग प्रकाश के अतिरिक्त अग्निशमन, साज-सामान एवं सेवा पर भी व्यय कर रहे हैं।

12.21.5 **I kołt fud LokLF; , oa I Qkbz** के मामलों में **uxj ikfyd fuxe** में इस व्यय के प्रतिशत अंश में कोई निरंतरता नहीं पाई गयी। यह 1999-2000 में कुल राजस्व व्यय के 30.84% से बढ़कर 2001-02 में 61.12% हो गया तथा फिर कम होकर अगले दो वर्षों में क्रमशः 52.98% एवं 29.80% रह गया। दूसरी ओर **uxj ikfyd ikfj"kn** एवं **uxj ipk; r** के कुल राजस्व व्यय में इस मद के प्रतिशत अंश में निरंतरता एवं स्थायित्व दृष्टिगोचर होता है। व्यय के इस मद में नगरीय पर्यावरण को प्रभावित करने वाले अनेक महत्वपूर्ण मद जैसे नालियाँ, मल निकासी, साफ सफाई, छूत की बीमारियों की रोकथाम, अस्पताल एवं औषधालय, शामिल हैं। **u-LFkk-fudk; k** का यह कार्य संबंधित क्षेत्रों के सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

12.21.6 **I kołt fud fuekZk** जिसमें प्रमुखतः पूर्व निर्मित आस्तियों के रख-रखाव का व्यय शामिल होता है, पर कुल राजस्व व्यय का अत्यन्त छोटा भाग व्यय होता है, जिसके फलस्वरूप स्थायी आस्तियों के अनुरक्षण की अवहेलना होती है। संभव है,

कि इस मद के राजस्व एवं पूँजीगत व्यय के मिले-जुले होने के कारण इससे संबंधित आँकड़ों की गलत सूचना हो। यह संभावना **uxj ipk; rka** के मामलों में विशेष रूप से हो सकती है।

- 12.21.7 **f'k{kk** पर अत्यधिक कम व्यय हुआ है, **uxj ikfyd fuxeka** में 120% एवं 1.30% के बीच **uxj ikfydk ifj"knka** में 4.06% से 5.58% के बीच तथा **uxj ipk; rka** में 2.95% से 4.42% के बीच। इस मद के कम व्यय का संभावित कारण यह है, कि राज्य सरकार इस मद पर अधिक व्यय करती है। **u-LFkk-fudk;** केवल कुछ प्राथमिक शालायें ही चलाती हैं।
- 12.21.8 **C; kt Hkqrku** राजस्व व्यय का एक नगण्य अंश है तथा यह **uxj ikfyd fuxeka** में कुल राजस्व व्यय का 0.51% से 1.25% के बीच एवं शेष दो वर्गों के **u-LFkk-fudk; ka** में शून्य एवं नगण्य है। राज्य के **u-LFkk-fudk; ka** ने अभी अधोसंरचना विकास के वित्तीयन के लिये वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने का मार्ग नहीं अपनाया है।
- 12.21.9 यह अच्छी बात है, कि सभी वर्गों को **u-LFkk-fudk; ka** में **I kekl; iz'kkl u** पर व्यय का अंश कम हो रहा है, परन्तु यह स्पष्ट नहीं है, कि क्या यह मितव्ययिता के उपायों एवं अनुत्पादक व्यय को कम करने के फलस्वरूप है अथवा खाली पड़े पदों को न भरने के कारण। यदि इसका कारण स्टाफ की नियुक्ति न करना है, तो यह उचित नहीं है, क्योंकि कुशलता की कीमत पर मितव्ययिता का समर्थन नहीं किया जा सकता। अधिकांश कर्मचारी **u-LFkk-fudk;** के कार्यों के निष्पादन में लगे होने के कारण, उनकी कमी से सेवाओं में कमी आती है। **I kozt'fud I j'kk** पर व्यय— जिसमें मार्ग प्रकाश एवं अग्निशमन सेवार्यें शामिल हैं, एक निश्चित स्तर पर बनाये रखना आवश्यक है तथा बढ़ते हुये नगरीकरण एवं नगरीय क्षेत्रों के विस्तार के साथ-साथ इनमें वृद्धि भी आवश्यक है। **I kozt'fud LokLF; , oa I QkbZ** के मद में भी संबंधित सेवाओं के विस्तार एवं उनमें सुधार के लिये अधिक राशियों की आवश्यकता है।

12.21.10 चूंकि *I kołtfud LokLF; , oa I QkbZ* के कई महत्वपूर्ण घटक हैं, अतः व्यय के इस मद के व्यक्तिगत घटकों की संक्षिप्त समीक्षा उपयोगी होगी। ; *g tkudkjh I kj.kh Ø- 12-24* में दी गयी है।

12.21.11 सार्वजनिक स्वास्थ्य के व्यय में *ty vkiŋrZ* अकेला सबसे बड़ा मद है, जिस पर वर्ष 2003-04 में *uxj ikfyd fuxeKa* में कुल राजस्व व्यय का 42.90%, *uxj ikfydk ifj"knk* में 51.59% तथा *uxj ipk; rŋk* में 45.61% व्यय हुआ। इसके अगले क्रम में सड़कों की सफाई पर होने वाला व्यय है, परन्तु इसके व्यय में वर्ष प्रति वर्ष अत्यधिक उतार-चढ़ाव रहे हैं। नाली व्यवस्था के व्यय में भी बहुत उतार-चढ़ाव रहे हैं, जो *uxj ikfyd fuxeKa* में 1999-2000 में सार्वजनिक स्वास्थ्य के कुल व्यय के 12.83% से 2002-03 में 3.15% के बीच बदलते रहे हैं। इसी प्रकार इस मद के *uxj ipk; rŋk* एवं *uxj ikfydk ifj"knk* के प्रतिशत व्यय में भी काफी उतार-चढ़ाव हुये हैं। व्यय की अस्थिरता *u-LFkk-fudk;* व्यय में नियोजन की कमी दर्शाता है तथा लोगों के सेवाओं के प्रदाय पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है।

12.22.0 राजस्व व्यय में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति :

12.22.1 *u-LFkk-fudk; jktLo 0; ; dh , d egRoikwZ fo'kŋkrk* उसके उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति है। *I kj.kh Ø- 12-25 uxj ikfydk 0; ; dsbl igywdks jsŋkŋfdr* करती है।

12.22.2 *I kj.kh Øekd 12-25* राजस्व व्यय के कुछ मदों में वर्ष दर वर्ष अत्याधिक उतार-चढ़ाव बताती हैं। उदाहरण के तौर पर *uxj ikfyd fuxeKa* के *I kołtfud LokLF; , oa I QkbZ* पर होने वाले राजस्व व्यय में 2001-02 में एकदम 259.26% की वृद्धि, परन्तु अगले ही वर्ष इसमें तीव्र गिरावट होकर 8.66% होना तथा उसके अगले वर्ष उसमें 64.39% की नकारात्मक वृद्धि रही। इसी प्रकार *fodkl dk; Z* के व्यय के मामलों में दो वर्षों में वृद्धि नकारात्मक रही, परन्तु एक अन्य वर्ष 1198.51% की असाधारण वृद्धि। पूँजीगत व्यय में तीनों वर्गों

के **u-LFkk-fudk; k** में उतार-चढ़ाव काफी रहे। इसके अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। **u-LFkk-fudk;** व्यय के इन उतार-चढ़ावों के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे राजस्व प्राप्तियों में स्थायित्व की कमी विशेषतयः राज्य सरकार के हस्तांतरणों की अस्थिरता, व्यय प्रबंधन का कमजोर नियोजन तथा आबंटनों के मामलों में स्थानीय दबाव, **ijUrqbl l c dk vFkZ gksrk g\$ l koZtfud foRr ds bl enyHkr fl)kr dk mYya?ku] fd ctVh; vkca/u , d fLFkj uhfr ds varx?r gkus pkfg; A**

12.22.3 उतार-चढ़ाव का **u-LFkk-fudk;** व्यय के परिणामों पर विपरीत प्रभाव हो सकता है तथा राशियाँ व्यर्थ जा सकती हैं, विशेषतयः तब जब योजनायें अपूर्ण छोड़ दी जाये अथवा उनकी समयावधि आगे बढ़ा दी जाय। **vk; kx dk er g\$ fd mu dkj dka dh xgu tkp gkuh pkfg; } ftuds dkj.k 0; ; ea o"lz nj o"lz ; s mrkj & p < ko gksrk g\$ bl l xdk ea vk; kx vuqka k djrk g\$ fd jkT; l jdkj }kj k fo'kka dh , d NkVh l febr fu; ?r dh tk;] tks bl fo"k; dh tkp dja rFkk cgrj 0; ; fu; kstu , oa 0; ; i xdku ds fy; s jkT; l jdkj , oa u-LFkk-fudk; l jdkjka }kj k fd; s tkus okys mik; ks ds l xdk ea vius l ?ko nA**

12.23.0 प्रतिव्यक्ति नगरीय स्थानीय निकाय व्यय :

12.23.1 सामान्यतयः विभिन्न नगरीय सेवाओं पर किया जाने वाला प्रति व्यक्ति व्यय वहाँ की जनता को प्रदत्त उन सेवाओं के स्तर का मापक माना जाता है। **l kj .kh Ø- 12-26 ea foHku l okvka ij fd; s tkus okys ifr 0; fDr 0; ; % jktLo 0; ;] iptxrk 0; ; , oa dgy 0; ; rFkk mues 2003&04 ea 1999&2000 ij ifr'kr of) dks** दर्शाया गया है।

12.23.2 **l kj .kh 12-26** दर्शाती है, कि **uxj ikfyd fuxeka ds ifr 0; fDr jktLo 0; ;** में वर्ष 2003—04 में 1999—2000 पर 36.15% की वृद्धि हुई तथा यही वृद्धि **uxj ipk; rka** में 84.26% तथा **uxj ikfydk ifj"knka** में सर्वाधिक 96.14%

रही। प्रति व्यक्ति पूँजीगत व्यय में सर्वाधिक वृद्धि, 704.53% **uxj ipk; rka** में हुई तथा उनके अगले क्रम में **uxj ikfydk ifj'knka** 278.50% तथा सबसे कम **uxj ikfyd fuxe** में 134.24% रही। कुल प्रति व्यक्ति व्यय में भी सर्वाधिक वृद्धि 17028% **uxj ipk; rka** में रही, जबकि इसकी तुलना में यह **uxj ikfydk ifj'knka** में 139.35% तथा **uxj ikfyd fuxe** में 63.33% रही। इसके संभावित कारण है; **uxj ikfyd fuxe** वाले शहरों में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि तथा वर्ष-दर वर्ष व्यय की मात्रा में भारी उतार-चढ़ाव।

12.23.3 **l kj.kh dz 12-27** के अनुसार सार्वजनिक सुरक्षा के प्रति व्यक्ति व्यय में 1999-2000 पर 2003-04 में 152.65% की सर्वाधिक वृद्धि **uxj ipk; rka** में हुई तथा इसकी तुलना में यह **uxj ikfydk ifj'knka** में 90.73% तथा **uxj ikfyd fuxe** में केवल 46.02% रही। ऐसा प्रतीत होता है, कि **uxj ikfyd fuxe** इस कार्य पर जिसमें मार्ग प्रकाश एवं अग्निशमन शामिल है, बढ़ती हुई राशि का व्यय नहीं कर रहे हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सफाई के मामलों में प्रति व्यक्ति व्यय में प्रतिशत वृद्धि पुनः **uxj ikfyd fuxe** में सबसे कम हुई 31.54%, जबकि यह **uxj ikfydk ifj'knka** में 100.85% तथा **uxj ipk; rka** में 114.21% थी। शिक्षा के मामलों में पाई गयी प्रतिशत वृद्धि बहुत अधिक नहीं है तथा यह **uxj ipk; rka** में सबसे कम है। सामान्य प्रशासन के प्रति व्यक्ति व्यय में प्रतिशत वृद्धि **uxj ikfyd fuxe** में न्यूनतम 9.47% रही तथा इसके अगले क्रम में **uxj ipk; rka** 19.65% तथा **uxj ikfydk ifj'knka** में 40.97% रही। परन्तु निरपेक्ष संख्याओं के रूप में प्रति व्यक्ति व्यय **uxj ikfyd fuxe** में सर्वाधिक 184.56 रु. रहा तथा इसके अगले क्रम में **uxj ikfydk ifj'knka** में रु. 99.81 तथा **uxj ipk; rka** में रु. 92.82 रहा।

12.23.4 **bl l nHkZ ea vuqka k dh tkrh g\$ fd l koZfud l j{kk} l koZfud LokLF; , oa l Qkb} rFkk f'k{kk ij jkT; ds u-LFkk-fudk; ka dks ifr 0; fDr 0; ; c<kus rFkk l keku; iz'kk l u ij de djus dh vko'; drk**

g\$ ijUrq ddkyrk dh dher ij ughA fofHkUu enka ds ifr 0; fDr 0; ; ka ea gkus okys Hkkjh mrkj&p<ko nij djus ds fy; s u-LFkk-fudk; 0; ; ds mfpr fu; kstu , oa izaku dh vko'; drk g\$ t\$ k fd iwl ea crk; k x; k g\$; s mrkj&p<ko jkT; ea bu l LFkkvka dh l okvka dh ek=k ij foijhr iHkko Mkyrs g\$

12.24.0 राज्य के नगरीय स्थानीय निकायों के वित्त की समेकित स्थिति :

12.24.1 राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय तथा उनके घटकों की पृथक-पृथक समीक्षा के पश्चात् अब हम राज्य के *u-LFkk-fudk; ka dh l esdr forrh; fLFkfr* का मूल्यांकन करेंगे । *l kj .kh Ø 12-28* में *rhuka oxkz ds u-LFkk-fudk; ka dh ; g fLFkfr]* पृथक-पृथक दर्शायी गयी है ।

12.24.2 सारणी हमें कुछ रोचक तथा साथ ही कुछ चिन्ताजनक बातें बताती है। *uxj ikfyd fuxeas us 5 ea l s 2 o"kkz ea jktLo ?kkVk n'kkz; k g\$ ijUrq ; fn ipthr ctV dks Hkh 'kkfey dj fy; k tk;] rks 5 ea l s 3 o"kkz ea dy feykj ?kkVs dh fLFkfr curh g\$* इसका यह अर्थ है, कि उनके पूँजीगत लेखों में घाटे का ही परिणाम है, कि उनकी वर्तमान समेकित वित्तीय स्थिति घाटे की है। इस तथ्य के बावजूद, कि उनके पास राजस्व अतिरेक होते हुये भी, जिसका उपयोग पूँजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति में हो सकता था, उन्हें कुल मिलाकर घाटों का सामना करना पड़ा। इस बात की जाँच की जानी चाहिये, कि किस प्रकार पूँजीगत व्यय, पूँजीगत प्राप्तियों एवं राजस्व अतिरेक की सम्मिलित राशि से भी अधिक हो गया, जिससे समेकित रूप से घाटा निर्मित हुआ। लगता है, कि उनका वित्तीय प्रबंधन संतोषजनक नहीं है।

12.24.3 अन्य दो वर्गों – *uxj ikfydk ifj"knka* एवं *uxj ipk; rka* ने राजस्व तथा समेकित रूप में भी अतिरेक दर्शाये है। यह इस बात का द्योतक है, कि ये

उपलब्ध राशियों का उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं। *u-LFkk-fudk; ka* की अधोसंरचना एवं मूलभूत सेवाओं की दयनीय स्थिति के रहते राजस्व एवं पूँजीगत दोनों लेखों में अतिरेक होना दुःखदायी है। उनके स्वयं के साधन, उनके राजस्व व्यय से कम हैं। अतएव उनके राजस्व अतिरेक राज्य एवं केन्द्र से हस्तांतरणों के फलस्वरूप हैं। उनकी पूँजीगत प्राप्तियाँ उनके पूँजीगत व्यय से अधिक हैं। नगरीय सेवाओं की उपलब्धता में अत्यधिक कमी के रहते हुये, *muds foRr ds vfrjd dk dkbz vkSpR; ugha gA* उपलब्ध आँकड़ों के अध्ययन से प्रतीत होता है, कि राशियों की कमी उनकी सेवाओं के विस्तार एवं उनके सुधार के मार्ग में बाधक नहीं है। संभवतः प्रमुख बाधाएँ हैं : *iz'kkl dh; ,oa rduhdh dfe; kj nijxkeh fu; kstu ,oa jkT; I jdkj ds ekxh'ku dk vHkkoA 'kgjka ,oa dLcka ds I eflor fodkl ds fy; s jkT; dh u-LFkk-fudk; ka dks nijxkeh fu; kstu dh vko'; drk gA mlga vius ikV/Dkfy; ka ea dkQh I d; k ea ifj; kstuk; a r\$ kj j[kuh pkfg; } ftl I s os vko'; drkuq kj ubz ifj; kstuk; a 'kh?kz ikjmk djus grq r\$ kj jg I da fuokIpr ifrfuf/k; ka ds ikl Hkh vi u&vi us {ks-ka ds fuekZk dh dYi uk gkuh pkfg; A*

12.24.4 आयोग का सुझाव है, कि *fo'kSkKka dh ,d I fefr xfbR dh tk;]* जो *Hkkjh ctV vfrjd* एवं *u-LFkk-fudk;* अधोसंरचना एवं सेवाओं में बड़े अंतराल एवं कमियों के सह-अस्तित्व का गहन अध्ययन करें। इस अध्याय के एक पूर्व खण्ड में, आयोग ने *u-LFkk-fudk; ka* के राजस्व व्यय के विभिन्न मदों एवं उप-मदों के व्यय में होने वाले भारी उतार-चढ़ाव का अध्ययन करने एवं उनमें *I qkkj ds mik; I q-kus* के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने की अनुशंसा की है। हम अनुशंसा करते हैं, कि उसी समिति को *jktLo y[kj ipthr y[ks ,oa jkT; dh u-LFkk-fudk; ka ds I efdR foRr ea fo | eku*

Hkkjh vfrj d dh Hkh tkp dk dk; Zlk tk; rFkk ml l s l febr l s
 c<rs gq s vfrj d dh l eL; k ds funku grq mi k; l q kus dks dgk
 tk; A

सारणी क्र. 12.1

v/; ; u dk {ks=

dz	u- LFkk fudk;	jkT; ea dy l d; k	v/; ; u ea 'kkfey l d; k	dy ea U; kn'kz dk ifr'kr	i R; d oxl dh dy tul d; k	U; kn'kz u-LFkk- fudk; ka dh tul d; k	dy ea U; kn'kz dk ifr'kr
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	नगर पालिक निगम	10	10	100.00%	2688792	2688792	100.00%
2.	नगर पालिका परिषद्	28	20	71.43%	933671	629325	67.40%
3.	नगर पंचायत	72	20	27.78%	705010	254567	36.11%
4.	; ksx	110	50	45.45%	4327473	3572684	82.56%

सारणी क्र. 12.2
 जल संयोजन; लक्ष्य; फल; कंधा जल इतर; कस ?वद
 1999-00 स 2003-04

(विभिन्न समग्रों के प्रतिशत)

Ø-	लक्ष्य, वा-लक्ष्य;	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6	7
1	लक्ष्य जल क लक्ष्य; अ संयोजन जल स %					
i	नगर पालिक निगम	68.71	71.62	73.36	75.51	69.69
ii	नगर पालिका परिषद	43.42	37.39	40.00	37.29	24.12
iii	नगर पंचायत	43.23	40.46	56.95	49.64	51.52
2	लक्ष्य जल संयोजन जल इतर; कस % वा					
i	नगर पालिक निगम	28.15	23.63	23.75	23.12	19.88
ii	नगर पालिका परिषद	12.32	11.29	11.96	10.51	6.13
iii	नगर पंचायत	10.62	9.60	11.84	8.33	7.52
3	लक्ष्य जल संयोजन लक्ष्य संयोजन स % वा					
i	नगर पालिक निगम	31.29	28.38	26.64	24.49	30.31
ii	नगर पालिका परिषद	56.58	62.61	60.00	62.71	75.88
iii	नगर पंचायत	56.77	59.54	43.05	50.36	48.48
4	लक्ष्य जल संयोजन जल इतर; कस % वा					
i	नगर पालिक निगम	12.82	9.36	8.63	7.50	8.65
ii	नगर पालिका परिषद	16.05	18.90	17.94	17.66	19.29

iii	नगर पंचायत	13.94	14.12	8.95	8.44	7.07
5	द्वय लो; अदक जक्तलो जक्तलो इफ्लर; कडस % एअ					
i	नगर पालिक निगम	40.98	32.99	32.38	30.62	28.53
ii	नगर पालिका परिषद	28.38	30.18	29.90	28.17	25.42
iii	नगर पंचायत	24.56	23.72	20.80	16.77	14.59
6	द्वय गलरकरज.क] द्वय जक्तलो इफ्लर; कडस % एअ					
i	नगर पालिक निगम	59.02	67.01	67.62	69.38	71.47
ii	नगर पालिका परिषद	71.62	69.82	70.10	71.83	74.58
iii	नगर पंचायत	75.44	76.28	79.20	83.23	85.41

सारणी क्र. 12.3
उख इक्यद फुखेकध जक्तलो इफ्लर; क]
1999-00 I s 2003-04½

Ø-	I dskd	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6	7
1- लो; अदस I क/कडस इफ्र'कर एअ						
i	स्वयं का कर राजस्व	68.71	71.62	73.51	75.51	69.69
ii	स्वयं का गैर-कर राजस्व	31.29	28.38	26.64	24.49	30.31
2- द्वय जक्तलो इफ्लर; कडस इफ्र'कर एअ						
i	स्वयं का कर राजस्व	28.15	23.63	23.80	23.12	19.88
ii	स्वयं का गैर-कर राजस्व	12.82	9.36	8.63	7.50	8.65
iii	कुल स्वयं के साधन	40.98	32.99	32.38	30.62	28.53
iv	कुल हस्तांतरण	59.02	67.01	67.62	69.38	71.47
v	राज्य सरकार से हस्तांतरण, कुल हस्तांतरणों के प्रतिशत में	78.70	84.55	89.65	77.56	77.37
vi	केन्द्र से हस्तांतरण, कुल हस्तांतरणों के प्रतिशत में	21.30	15.46	10.35	22.44	22.63

सारणी क्र. 12.4
उख इक्यदक इफ्र'कनकध जक्तलो इफ्लर; क]
1999-00 I s 2003-04½

Ø-	I dskd	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6	7

1- Lo; a ds l k/kuk a ds i fr'kr ea						
i	स्वयं का कर राजस्व	43.42	37.39	40.00	37.29	24.12
ii	स्वयं का गैर-कर राजस्व	56.58	62.61	60.00	62.71	75.88
2- dy jktLo i kflr; k a ds i fr'kr ea						
i	स्वयं का कर राजस्व	12.32	11.29	11.96	10.51	6.13
ii	स्वयं का गैर-कर राजस्व	16.05	18.90	17.94	17.66	19.29
iii	कुल स्वयं के साधन	28.38	30.18	29.90	28.17	25.42
iv	कुल हस्तांतरण	71.62	69.82	70.10	71.83	74.58
v	राज्य सरकार से हस्तांतरण, कुल हस्तांतरणों के प्रतिशत में	83.69	81.13	86.72	85.09	72.65
vi	केन्द्र से हस्तांतरण, कुल हस्तांतरणों के प्रतिशत में	16.31	18.87	13.28	14.91	27.35

सारणी क्र. 12.5

jkt; dh uxj ipk; rka ds jktLo ds L=kr
¼1999&00 I s 2003&04½

क्र.	l adrk d	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6	7
1- Lo; a ds l k/kuk a ds i fr'kr ea						
i	स्वयं का कर राजस्व	43.23	40.46	56.95	49.65	51.52
ii	स्वयं का गैर-कर राजस्व	56.77	59.54	43.05	50.35	48.88
2- dy jktLo i kflr; k a ds i fr'kr ea						
i	स्वयं का कर राजस्व	10.62	9.60	11.84	8.33	7.52
ii	स्वयं का गैर-कर राजस्व	13.94	14.12	8.95	8.44	7.07
iii	कुल स्वयं के साधन	24.56	23.72	20.80	16.77	14.59
iv	कुल हस्तांतरण	75.44	76.28	79.20	83.23	85.41
v	राज्य सरकार से हस्तांतरण, कुल हस्तांतरणों के प्रतिशत में	76.06	68.64	79.84	73.78	74.13
vi	केन्द्र से हस्तांतरण, कुल हस्तांतरणों के प्रतिशत में	23.94	31.36	21.16	26.22	25.87

सारणी क्र. 12.6

u-LFkk-fudk; k a ds vkrRefuHjrk funz k ad
¼Lo; a dk jktLoj dy jktLo 0; ; ds i fr'kr ea½
¼1999&00 I s 2003&04½

dz	u- LFkk- fudk;	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6	7
1.	नगर पालिक निगम	42.74	41.65	24.56	21.77	41.06
2.	नगर पालिका परिषद्	39.17	40.37	39.24	39.57	45.25
3.	नगर पंचायत	32.45	41.38	35.29	29.67	27.25

सारणी क्र. 12.7
 jkT; ds u-LFkk fudk; ds jktLo dh okf'kd vkf r of) nj
 1999-00 to 2003-04

(%)

dz	jktLo dk l kr	uxj ikfyd fuxe	uxj ikfyd ifj'kn	uxj i pk; r
1	2	3	4	5
1.	स्वयं का कर राजस्व	11.54	11.92	18.05
2.	गैर-कर राजस्व	08.33	33.56	07.95
3.	कुल स्वयं का राजस्व	10.64	25.92	12.51
4.	कुल हस्तांतरण	24.95	31.04	34.62
5.	कुल राजस्व प्राप्तियाँ	19.84	29.61	30.03

सारणी क्र. 12.8
 jkT; ds uxj ikfyd fuxe ka dh dj l jpk
 1999-00 to 2003-04

(%)

Ø-	l drkd	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6	7
I	vfuoK; l dj					
1.	l i fr dj					
i)	स्वयं के कर राजस्व का प्रतिशत	55.71	52.18	50.05	50.97	49.39
ii)	स्वयं के कुल राजस्व का प्रतिशत	38.27	37.37	36.71	38.49	34.42
iii)	कुल राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत	15.68	12.33	11.89	11.78	9.82
2	l e fdr dj 1/4 kQ&l Okbji zdk'k , oa vfu'keu dj 1/2					
i)	स्वयं के कर राजस्व का प्रतिशत	11.41	14.41	14.09	15.48	14.64
ii)	स्वयं के कुल राजस्व का प्रतिशत	7.84	10.32	10.33	11.69	10.20
iii)	कुल राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत	3.21	3.40	3.35	3.58	2.91
3.	ty nj					
i)	स्वयं के कर राजस्व का प्रतिशत	21.54	22.56	23.74	17.98	21.01
ii)	स्वयं के कुल राजस्व का प्रतिशत	14.80	16.15	17.41	13.58	14.64
iii)	कुल राजस्व का प्रतिशत	6.07	5.33	5.64	4.16	4.18
	vfuoK; l dj] dy Lo; a ds dj jktLo ds i fr'kr ea	88.66	89.15	87.87	84.43	85.03
II.	foodk/ku dj					

1.	सफाई कर	नग	नग	0.00	नग	0.00
2.	निकासी कर	0.00	0.00	0.00	नग	0.00
3.	प्रवेश कर	0.00	0.00	0.14	0.14	0.12
4.	निर्यात कर	2.57	2.55	5.62	10.42	7.41
5.	विज्ञापन कर	0.27	0.38	0.35	0.36	0.37
6.	यात्री कर	-	-	-	-	-
7.	अन्य कर	8.49	7.93	6.02	4.65	7.06
dy foosk/khu dj] dy Lo; a ds jktLo ds ifr'kr ea		11.34	10.85	12.13	15.57	14.97
dy dj jktLo] dy jktLo i kflr; ka ds ifr'kr ea		28.15	23.63	23.75	23.12	19.88

नोट : नग (नगण्य को दर्शाता है।)

सारणी क्र. 12.9
uxj ikfydk ifj'knkadh dj l jpk
¼1999&00 l s 2003&04½

(%)

Ø-	l drkd	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6	7
I	vfuok; l dj					
1.	l i flr dj					
i)	स्वयं के कर राजस्व का प्रतिशत	23.84	28.15	47.23	42.55	42.81
ii)	स्वयं के कुल राजस्व का प्रतिशत	10.35	10.53	18.89	15.87	10.33
iii)	कुल राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत	2.94	3.18	5.65	4.47	2.62
2	l esdr dj ¼ kQ&l Qkbjizdk'k , oa vflu'keu dj½					
i)	स्वयं के कर राजस्व का प्रतिशत	23.18	24.05	21.72	24.35	20.29
ii)	स्वयं के कुल राजस्व का प्रतिशत	10.07	8.99	8.69	9.08	4.89
iii)	कुल राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत	2.86	2.71	2.60	2.56	1.24
3.	ty nj					
i)	स्वयं के कर राजस्व का प्रतिशत	31.96	33.97	22.61	24.04	29.60
ii)	स्वयं के कुल राजस्व का प्रतिशत	13.88	12.70	9.05	8.97	7.14
iii)	कुल राजस्व का प्रतिशत	3.94	3.83	2.70	2.53	1.82
	vfuok; l dj] dy Lo; a ds dj jktLo ds ifr'kr ea	78.99	86.17	91.56	90.95	92.71
II.	foosk/khu dj					

1.	सफाई कर	0.02	0.01	0.01	0.01	नग
2.	निकासी कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	प्रवेश कर	1.19	0.73	0.69	0.17	0.56
4.	निर्यात कर	8.31	7.77	5.24	5.72	3.52
5.	विज्ञापन कर	0.08	0.06	0.04	0.04	0.04
6.	यात्री कर	0.75	1.96	0.74	1.12	1.45
7.	अन्य कर	10.66	3.30	1.72	2.00	1.72
	dy foosk/khu dj] dy Lo; a ds jktLo ds ifr'kr ea	21.01	13.83	8.44	9.05	7.29
	dy dj jktLo] dy jktLo i kfr; ka ds ifr'kr ea	12.32	11.29	11.96	10.51	6.13

नोट : नग (नगण्य को दर्शाता है।)

सारणी क्र. 12.10
uxj i pk; rkadh dj l jpuk
¼999&00 l s 2003&04½

(%)

Ø-	l drkd	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6	7
I.	vfuok; l dj					
1.	l i fr dj					
i)	स्वयं के कर राजस्व का प्रतिशत	25.12	26.63	32.00	28.97	25.29
ii)	स्वयं के कुल राजस्व का प्रतिशत	10.86	10.78	18.22	14.38	13.03
iii)	कुल राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत	2.67	2.56	3.79	2.41	1.90
2.	l e fdr dj ¼ kQ&l Qkbj i dk'k , oa vfxu'keu dj½					
i)	स्वयं के कर राजस्व का प्रतिशत	23.10	20.97	15.86	19.75	18.70
ii)	स्वयं के कुल राजस्व का प्रतिशत	9.98	8.48	9.03	9.81	9.69
iii)	कुल राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत	2.45	2.01	1.88	1.64	1.41
3.	ty nj					
i)	स्वयं के कर राजस्व का प्रतिशत	42.11	32.12	35.06	31.38	31.05
ii)	स्वयं के कुल राजस्व का प्रतिशत	18.21	12.99	19.97	15.58	16.00
iii)	कुल राजस्व का प्रतिशत	4.47	3.08	4.15	2.61	2.33

	vfuok; l dj] dy Lo; a ds dj jktLo ds ifr'kr ea	90.33	79.72	82.92	80.10	75.04
II.	foosk/khu dj					
1.	प्रवेश कर	0.00	2.44	1.98	2.24	2.51
2.	निर्यात कर	5.95	13.90	8.80	13.47	16.30
3.	विज्ञापन कर	0.17	1.42	0.49	2.27	1.89
4.	अन्य कर	3.55	2.51	5.81	1.92	4.26
	dy foosk/khu dj] dy Lo; a ds jktLo ds ifr'kr ea	9.67	20.28	17.08	19.90	24.96
	dy dj jktLo] dy jktLo ikfr; ka ds ifr'kr ea	10.62	9.90	11.84	8.33	7.52

सारणी क्र. 12.11
 elx dsfo:) l ifr dj ds l xg.k dk vk r ok'kd ifr'kr
 1999&00 l s 2003&04½

o"z	uxj ikfyd fuxe	uxj ikfydk ifj"kn	uxj ipk; r
1	2	3	4
1999-2000	50.89	56.14	42.66
2000-2001	60.85	62.11	50.01
2001-2002	62.09	67.72	58.52
2002-2003	60.68	66.16	56.59
2003-2004	77.52	66.06	52.32
ikp o"kk dk vk r	62.41	63.64	52.02

सारणी क्र. 12.12
 u-LFkk-fudk; ka dh elx dh ryuk ea l xg.k ds ifr'kr ea l qkj
 1999&00 ij 2003&04½

dz	u-LFkk- fudk;	dy dk % ftlgus l xg.k % ea l qkj fd; k gS	70 l s 100 % ds foLrkj rd igpus okya dk %	50% l s de l xg.k okyh u- LFkk-fudk; ka dk %
1	2	3	4	5

1.	नगर पालिक निगम	80%	80%	20%
2.	नगर पालिका परिषद्	55%	35%	35%
3.	नगर पंचायत	50%	35%	40%

सारणी क्र. 12.13
खर्च के प्रकारों के प्रतिशत
1999-00 से 2003-04

(%)

क्र.	वर्ग	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1.	नगर पालिक निगम	31.29	28.38	26.64	24.49	30.31
2.	नगर पालिका परिषद्	56.58	62.61	60.00	62.71	75.88
3.	नगर पंचायत	56.77	59.54	43.05	50.36	48.48
1.	नगर पालिक निगम	12.82	9.36	8.63	7.50	8.65
2.	नगर पालिका परिषद्	16.05	18.90	17.94	17.66	19.29
3.	नगर पंचायत	13.94	14.12	8.95	8.44	7.07

सारणी क्र. 12.14
खर्च के प्रकारों के प्रतिशत
1999-00 से 2003-04

(%)

क्र.	वर्ग	प्रतिशत
1.	नगर पालिक निगम	08.33
2.	नगर पालिका परिषद्	33.56
3.	नगर पंचायत	07.95

सारणी क्र. 12.15
खर्च के प्रकारों के प्रतिशत
1999-00 से 2003-04

(%)

क्र.	वर्ग	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1.	भूमि एवं भवन	29.04	27.03	29.10	33.13	21.70
2.	बाजार शुल्क	13.93	20.85	16.64	16.21	11.99
3.	अन्य शुल्क	24.54	28.19	33.90	29.08	27.35

4	दण्ड	2.38	1.95	1.98	0.94	1.01
5	उद्यान, बगीचे, खाद की बिक्री	0.54	1.09	1.12	1.12	0.57
6	ब्याज प्राप्तियाँ	4.54	3.61	3.70	3.73	5.63
7	अन्य	25.33	17.28	13.56	15.77	31.76

सारणी क्र. 12.16

उद्योगिक एवं वाणिज्यिक भू-संपादन शुल्क का
विवरण 1999-00 से 2003-04 तक

(%)

क्र.	विवरण	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1	भूमि एवं भवन	12.42	7.58	7.58	8.91	4.44
2	बाजार शुल्क	10.24	9.68	6.16	6.37	3.27
3	अन्य शुल्क	2.57	2.45	1.88	1.75	1.28
4	दण्ड	0.23	0.21	0.15	0.12	0.06
5	उद्यान, बगीचे, खाद की बिक्री	0.02	0.01	0.01	0.08	0.14
6	ब्याज प्राप्तियाँ	0.24	0.43	0.21	0.09	0.13
7	अन्य	74.27	79.63	84.01	82.68	90.67

सारणी क्र. 12.17

उद्योगिक एवं वाणिज्यिक भू-संपादन शुल्क का
विवरण 1999-00 से 2003-04 तक

(%)

क्र.	विवरण	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1	भू-संपादन शुल्क	30.53	44.37	27.23	26.64	21.99
2	बाजार शुल्क	30.32	20.33	27.33	26.99	24.03
3	अन्य शुल्क	2.23	1.71	1.80	1.55	2.04
4	दण्ड	0.43	0.39	0.49	0.65	0.50
5	उद्यान, बगीचे, खाद की बिक्री	2.35	2.35	2.42	2.64	2.18
6	ब्याज प्राप्तियाँ	0.03	0.63	1.67	0.39	0.00
7	अन्य	34.10	30.22	39.07	41.14	49.25

सारणी क्र. 12.18

ज०क०; ल०क० ल० सु-ल०क०-फु०क०; क० द०क० ग०ल०र०क०र०.क० ध० ल० ग०पु०क०
 १९९९-०० ल० २००३-०४

व०क०	उ०ख० ल०क०यु०द० फु०खे		उ०ख० ल०क०यु०द०क० ल०क०		उ०ख० ल०क०र०	
	वु०पु०क० *	{क०रि०रि०ल० , ०ल० क०क० ख०; क० क०क०ल०	वु०पु०क० *	{क०रि०रि०ल० , ०ल० क०क० ख०; क० क०क०ल०	वु०पु०क० *	{क०रि०रि०ल० , ०ल० क०क० ख०; क० क०क०ल०
१	२	३	५	६	७	८
१९९९-२०००	२०.९०	७९.१०	२९.७३	७०.२७	२९.७९	७०.२१
२०००-२००१	४२.२४	५७.७६	४२.४७	५७.५३	४३.६५	५६.३५
२००१-२००२	२३.२३	७६.७७	४२.९२	५७.०८	४८.३६	५१.६४
२००२-२००३	३०.२६	६९.७४	४६.२३	५३.७७	५१.३८	४८.६२
२००३-२००४	३७.९८	६२.०२	६०.०४	३९.९६	६२.४५	३७.५५

नोट - * में शामिल है अनुदान एवं अन्य

सारणी क्र. 12.19

ज०क०; ल०क०, ०ल०द०ध०न० ल०क० ल० सु०ख० ल०क०यु०द० फु०खे क० द०क० ग०ल०र०क०र०.क०
 १९९९-०० ल० २००३-०४

(%)

व०क०	ल०क०र०क०	१९९९-००	२०००-०१	२००१-०२	२००२-०३	२००३-०४
१	२	३	४	५	६	७
I.	ज०क०; ल०क० ल० ग०ल०र०क०र०.क०					
१.	चूंगी समाप्त करने की क्षतिपूर्ति	६३.०१	४९.३९	७०.०८	६२.०७	५५.७७
२.	यात्री कर की क्षतिपूर्ति	९.९०	६.२०	४.३२	४.७२	३.३५
३.	अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क में हिस्सा	६.१९	२.१८	२.३७	२.९५	२.९०
४.	अन्य हस्तांतरण	२०.९०	४२.२४	२३.२३	३०.२६	३७.९८
	द०य० ज०क०; ग०ल०र०क०र०.क०	७८.७०	८४.५५	८९.६५	७७.५६	७७.३७

	dk ifr'kr					
II.	dñz l jdkj l s gLrkj.k					
1.	विशेष अनुदान	6.80	6.01	13.68	9.66	7.73
2.	सामान्य अनुदान	2.06	12.84	8.35	8.88	6.77
3.	केन्द्रीय वि.आ. की अनुशंसाओं पर अनुदान	7.32	11.17	21.13	6.09	6.64
4.	मूलभूत अनुदान	6.57	18.15	15.06	5.92	5.33
5.	अन्य हस्तांतरण	77.25	51.82	41.78	69.46	73.53
	dy dñh; gLrkj.k ka dk %	21.30	15.45	10.35	22.44	22.63
	dy gLrkj.k dy jktLo i kflr; ka ds % ea	59.02	67.01	67.62	69.38	71.47

सारणी क्र. 12.20
 uxj ikfydk ifj"knka ds jkT; , oa dñz l jdkj l s gLrkj.k
 1/1999&00 l s 2003&04½

(%)

Ø-	l adrkad	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6	7
I.	राज्य सरकार से हस्तांतरण					
1.	विशेष अनुदान	12.99	13.04	15.29	20.72	28.05
2.	चूंगी समाप्त करने की क्षतिपूर्ति	56.63	48.22	50.47	45.70	35.12
3.	यात्री कर की क्षतिपूर्ति	11.30	7.96	5.22	5.92	3.46
4.	अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क में हिस्सा	2.34	1.34	1.39	2.15	1.38

5.	अन्य हस्तांतरण	16.75	29.43	27.63	25.51	32.00
	dy jkT; gLrkj.k ka dk ifr'kr	83.69	81.13	86.72	85.09	72.65
II.	dlnz I jdkj I s gLrkj.k					
1.	विशेष अनुदान	40.67	5.24	25.26	25.66	23.38
2.	सामान्य अनुदान	16.32	27.58	20.59	13.76	40.12
3.	केन्द्रीय वि.आ. की अनुशांसाओं पर अनुदान	1.98	17.93	16.90	26.56	1.77
4.	मूलभूत अनुदान	20.92	41.46	26.01	17.76	24.63
5.	अन्य हस्तांतरण	20.11	7.79	11.24	16.27	10.11
	dy dlnh; gLrkj.k ka dk %	16.31	18.87	13.28	14.91	27.35
	dy gLrkj.k dy jktLo i kflr; ka ds % ea	71.62	69.82	70.10	71.83	74.58

सारणी क्र. 12.21
uxj ipk; rka dks jkT; , oa dlnz I jdkj I s gLrkj.k
1999-00 I s 2003-04

(%)

क्र.	संकेतांक	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6	7
I.	jkT; I jdkj I s gLrkj.k					
1.	विशेष अनुदान	8.88	5.35	7.10	10.02	11.01
2.	चूंगी समाप्त करने की क्षतिपूर्ति	46.74	39.85	38.53	33.33	24.78
3.	यात्री कर की क्षतिपूर्ति	19.11	11.05	6.21	6.22	4.69
4.	अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क में हिस्सा	4.36	5.46	6.90	9.08	8.08

5.	अन्य हस्तांतरण	20.90	38.30	41.25	41.35	51.44
	dy jkT; gLrkj.k ka dk ifr'kr	76.06	68.64	78.84	73.78	74.13
II.	dshz l jdkj l s gLrkj.k					
1.	विशेष अनुदान	12.64	18.55	19.12	27.72	24.07
2.	सामान्य अनुदान	16.01	10.97	27.69	13.72	26.94
3.	केन्द्रीय वि.आ. की अनुशांसाओं पर अनुदान	22.95	12.01	11.76	21.92	8.74
4.	मूलभूत अनुदान	34.32	43.02	30.61	21.84	23.46
5.	योजना राजस्व व्यय	0.00	1.05	0.39	0.40	0.71
6.	अन्य हस्तांतरण	14.08	14.40	10.42	14.40	16.09
	dy dshz; gLrkj.k ka dk %	23.94	31.36	21.16	26.22	25.87
	dy gLrkj.k dy jktLo i kflr; ka ds % ea	75.44	76.28	79.20	83.23	85.41

सारणी क्र. 12.22
 1999-2000 से 2003-04 तक
 1999-2000 से 2003-04 तक

(रु. में)

वर्ष	1999-2000 से 2003-04 तक			1999-2000 से 2003-04 तक			1999-2000 से 2003-04 तक			1999-2000 से 2003-04 तक		
	1999-2000	2000-2001	2001-2002	1999-2000	2000-2001	2001-2002	1999-2000	2000-2001	2001-2002	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1999-2000	93.28	38.59	31.56	42.48	50.28	41.45	135.76	88.87	73.01	195.57	224.31	224.29
2000-2001	98.43	41.34	45.48	39.01	69.22	66.94	137.44	110.56	112.42	279.12	255.73	361.49
2001-2002	105.46	59.16	68.10	38.31	88.74	51.47	143.77	147.90	119.57	300.19	346.78	455.38
2002-2003	116.42	56.39	56.87	37.75	94.81	57.68	154.17	151.19	114.55	349.39	385.52	568.53
2003-2004	123.85	48.56	58.21	53.87	152.79	54.78	177.72	201.35	122.99	445.13	590.65	661.61
2003-04 से 1999-2000 तक का %	32.77	25.84	84.43	26.80	203.88	32.15	30.90	126.57	54.75	127.61	163.32	194.98

सारणी क्र. 12.23
 jkT; dsu-LFKk-fudk; kdk jktLo 0; ;
 %dy jktLo 0; ; ds % e½
 1999-00 l s 2003-04

Ø-	jktLo 0; ; ds en	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6	7
1.	uxj ikfyd fuxe					
i	सामान्य प्रशासन	53.03	50.62	27.96	28.87	42.64
ii	सार्वजनिक सुरक्षा	7.62	9.99	5.10	6.24	10.42
iii	सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सफाई	30.84	31.27	61.12	52.98	29.80
iv	सार्वजनिक निर्माण	4.21	4.45	3.32	3.59	10.08
v	शिक्षा	1.20	1.28	0.78	0.79	1.30
vi	विकास कार्य	0.79	0.65	0.63	6.49	0.85
vii	ब्याज भुगतान	1.25	1.11	0.51	0.59	1.10
viii	अन्य राजस्व व्यय	1.05	0.62	0.58	0.46	3.81
2.	uxj ikfydk ifj"kns					
i	सामान्य प्रशासन	31.21	33.16	26.84	25.57	22.43
ii	सार्वजनिक सुरक्षा	13.82	12.26	17.39	15.76	13.44
iii	सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सफाई	33.05	32.65	34.04	36.25	33.84
iv	सार्वजनिक निर्माण	9.27	5.84	5.08	9.30	12.49
v	शिक्षा	4.06	5.58	4.66	4.91	4.44
vi	विकास कार्य	6.54	4.38	4.31	4.68	4.65
vii	ब्याज भुगतान	0.00	0.02	0.00	0.03	0.00
viii	अन्य राजस्व व्यय	2.06	6.11	7.68	3.51	8.71
3.	uxj ipk; ra					
i	सामान्य प्रशासन	34.48	31.65	27.26	23.81	22.39
ii	सार्वजनिक सुरक्षा	11.15	13.99	14.73	14.59	15.29
iii	सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सफाई	28.88	28.93	27.84	31.76	33.57
iv	सार्वजनिक निर्माण	9.26	10.21	14.65	16.76	14.68
v	शिक्षा	4.42	3.43	3.54	2.95	3.50
vi	विकास कार्य	7.50	7.15	7.01	5.35	5.68
vii	ब्याज भुगतान	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
viii	अन्य राजस्व व्यय	4.31	4.64	4.97	4.79	4.89

सारणी क्र. 12.24
जल आपूर्ति, नाली व्यवस्था, कचरा निपटान, सड़कों की सफाई, अस्पताल एवं औषधालय, पार्क एवं उद्यान
1999-00 से 2003-04 तक

(%)

Ø-	जल आपूर्ति, नाली व्यवस्था, कचरा निपटान, सड़कों की सफाई, अस्पताल एवं औषधालय, पार्क एवं उद्यान	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6	7
1.	जल आपूर्ति					
i	जल आपूर्ति	41.12	40.81	13.60	13.23	42.90
ii	नाली व्यवस्था	12.83	10.05	3.47	3.15	11.85
iii	कचरा निपटान	2.16	3.43	0.97	0.76	4.34
iv	सड़कों की सफाई	13.16	13.36	3.32	3.41	13.44
v	अस्पताल एवं औषधालय	2.44	2.22	0.68	0.56	1.76
vi	पार्क एवं उद्यान	3.64	4.59	1.44	0.93	3.06
2.	नाली व्यवस्था					
i	जल आपूर्ति	44.57	42.74	49.87	49.16	51.59
ii	नाली व्यवस्था	12.88	11.37	11.61	14.86	16.10
iii	कचरा निपटान	3.06	5.58	9.65	4.82	4.76
iv	सड़कों की सफाई	20.58	20.37	15.49	15.57	13.44
v	अस्पताल एवं औषधालय	0.85	0.73	0.50	0.56	0.40
vi	पार्क एवं उद्यान	3.11	2.29	2.47	5.67	4.57
3.	कचरा निपटान					
i	जल आपूर्ति	38.31	38.73	47.18	47.06	45.61
ii	नाली व्यवस्था	7.19	3.61	4.01	4.59	3.13
iii	कचरा निपटान	3.88	4.09	3.61	1.04	1.55
iv	सड़कों की सफाई	32.13	30.61	25.33	19.31	9.14
v	अस्पताल एवं औषधालय	-	-	-	-	-
vi	पार्क एवं उद्यान	1.49	3.53	4.65	10.46	5.82

सारणी क्र. 12.25
 jktLo 0; ; eafinysokl ij gvk % ifjorL
 1999&00 I s 2003&04½

Ø-	jktLo 0; ; dsen-	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	vk r okf'kd ifjorL
1	2	3	4	5	6	7
1.	uxj ikfyd fuxe					
i	सामान्य प्रशासन	2.88	1.53	29.43	-6.48	6.84%
ii	सार्वजनिक सुरक्षा	41.20	-6.10	53.31	5.69	23.53
iii	सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सफाई	9.28	259.26	8.66	-64.39	53.20
iv	सार्वजनिक निर्माण	13.91	37.35	35.40	77.76	41.11
v	शिक्षा	15.19	12.40	26.57	3.88	14.51
vi	विकास कार्य	-11.56	77.02	1198.51	-91.66	293.08
vii	ब्याज भुगतान	-4.65	-16.20	45.84	18.91	10.97
viii	अन्य राजस्व व्यय	-36.20	69.40	-0.46	428.52	115.32
ix	कुल राजस्व व्यय	7.77	83.82	25.37	-36.68	20.07
x	पूँजीगत व्यय	14.66	20.81	29.28	51.08	28.96
xi	कुल व्यय	9.68	65.57	26.19	-17.79	20.94
2.	uxj ikfydk ifj'kn					
i	सामान्य प्रशासन	33.05	15.42	0.06	5.83	13.59
ii	सार्वजनिक सुरक्षा	11.15	102.15	-4.83	2.88	27.84
iii	सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सफाई	23.73	48.66	11.83	12.62	24.21
iv	सार्वजनिक निर्माण	-21.13	24.08	92.20	62.03	39.30
v	शिक्षा	72.08	19.05	10.73	9.09	27.74
vi	विकास कार्य	-16.09	40.33	13.92	-19.98	14.54
vii	अन्य राजस्व व्यय	271.65	79.20	-51.99	199.60	124.61
viii	कुल राजस्व व्यय	25.23	42.58	5.03	20.63	23.37
ix	पूँजीगत व्यय	42.54	67.59	66.43	9.81	46.59
x	कुल व्यय	29.33	49.11	23.06	16.34	29.46
3.	uxj ipk; r					
i	सामान्य प्रशासन	14.98	11.29	3.10	4.61	8.50
ii	सार्वजनिक सुरक्षा	57.04	36.04	16.96	16.63	31.67
iii	सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सफाई	25.48	24.33	34.69	17.58	25.52
iv	सार्वजनिक निर्माण	38.18	85.33	35.04	-2.53	39.01
v	शिक्षा	-2.87	33.38	-1.58	31.85	15.19
vi	विकास कार्य	19.39	26.63	-9.93	18.14	13.56
vii	अन्य राजस्व व्यय	34.89	38.42	13.71	13.50	25.13
viii	कुल राजस्व व्यय	25.25	29.20	18.07	11.24	20.94
ix	पूँजीगत व्यय	250.97	45.81	44.40	25.58	91.69
x	कुल व्यय	56.56	34.37	26.95	16.74	33.65

सारणी क्र. 12.26
1999-2000 से 2003-04 तक

(रूपयों में)

वर्ष	ग्रामीण विकास			ग्रामीण विकास			ग्रामीण विकास		
	ग्रामीण विकास	ग्रामीण विकास	ग्रामीण विकास	ग्रामीण विकास	ग्रामीण विकास	ग्रामीण विकास	ग्रामीण विकास	ग्रामीण विकास	ग्रामीण विकास
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1999-2000	317.92	121.88	439.80	226.85	70.45	297.30	225.00	36.23	261.23
2000-2001	330.02	134.62	464.64	270.85	96.80	370.66	271.67	122.58	394.25
2001-2002	585.45	156.95	742.41	378.90	156.59	533.49	338.81	172.53	511.34
2002-2003	708.32	195.82	904.14	382.12	251.57	633.68	386.11	240.47	626.59
2003-2004	432.83	285.50	718.34	444.94	266.64	711.58	414.59	291.49	706.07
2003-04 का 1999-2000 का प्रतिशत	36.15	134.24	63.33	96.14	278.50	139.35	84.26	704.53	170.28

सारणी क्र. 12.27
 foHkU uxjh; I okvka ij ifr 0; fDr 0; ;
 ¼1999&00 I s 2003&04½

(रु. में)

o"Kz	I keKJ; i z kkl u	I kozt fud I g {kk	I kozt fud LokLF; , oa I Qkbz	I kozt fud fueKz k	f' k {kk
1	2	3	4	5	6
1- uxj ikfyd fuxe					
1999-2000	168.59	24.24	98.05	13.38	3.81
2000-2001	167.07	32.97	103.21	14.48	4.22
2001-2002	163.70	29.88	357.84	19.46	4.58
2002-2003	204.49	44.21	375.26	25.42	5.60
2003-2004	184.56	45.09	128.98	43.61	5.61
2003-04 ea 1999-2000 ij % of)	9.47%	46.02%	31.54%	226.03%	47.38%
2- uxj ikfydk ifj"kn-					
1999-2000	70.80	31.34	74.96	21.02	9.21
2000-2001	90.81	33.59	89.42	15.99	15.28
2001-2002	101.17	65.53	128.31	19.14	17.55
2002-2003	97.71	60.20	138.51	35.52	18.76
2003-2004	99.81	59.78	150.57	55.55	19.76
2003-04 ea 1999-2000 ij % of)	40.97%	90.73%	100.85%	164.22%	114.53%
3- uxj i pk; r					
1999-2000	77.57	25.10	64.97	20.83	9.96
2000-2001	85.98	37.99	78.59	27.75	9.32
2001-2002	92.37	49.89	94.32	49.64	12.00
2002-2003	91.92	56.33	122.63	64.71	11.40
2003-2004	92.82	63.41	139.18	60.88	14.51
2003-04 ea 1999-2000 ij % of)	19.65%	152.65%	114.21%	192.26%	45.75%

सारणी क्र. 12.28
 जट; ध u-LFk-fuck; ka dh l efd r foRh; fLFkr
 1999&00 l s 2003&04½

(हजार रु.)

o"z	jktLo ikflr; kW	jktLo 0; ;	vfrjđ @ ?kVk	iũhxr ikflr; kW	iũhxr 0; ;	vfrjđ @ ?kVk	dy ikflr; kW	dy 0; ;	vfrjđ @ ?kVk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1- uxj ikfyd fuxe									
1999-00	858808	823400	35408	169169	315679	-146510	1027977	1139079	-111102
2000-01	1120044	887344	232700	200494	361969	-161475	1320538	1249313	71225
2001-02	1236935	1631152	-394217	295220	437291	-142071	1532155	2068443	-536288
2002-03	1453760	2044917	-591157	367053	565320	-198267	1820813	2610237	-789424
2003-04	1863245	1294821	568424	505063	854077	-349014	2368308	2148898	219410
2- uxj ikfydk ifj"kn-									
1999-00	189994	137624	52370	25948	42738	-16790	215942	180362	35580
2000-01	230518	172343	58175	28028	60920	-32892	258546	233263	25283
2001-02	322523	245733	76790	46647	102095	-55448	369170	347828	21342
2002-03	362524	258100	104424	75070	169921	-94851	437594	428021	9573
2003-04	554214	311357	242857	52033	186588	-134555	606247	497945	108302
3- uxj ipk; r									
1999-00	72958	55216	17742	3281	8891	-5610	76239	64107	12132
2000-01	120645	69159	51486	8268	31205	-22937	128913	100364	28549
2001-02	151632	89354	62278	10928	45501	-34573	162560	134855	27705
2002-03	186637	105498	81139	13977	65704	-51727	200614	171202	29413
2003-04	219258	117353	101905	20081	82508	-62427	239339	199861	39478

अनुलग्नक क. 12.1
 uxj ikfyd fuxe kadh jktLo ikflr; k
 1999&00 I s 2003&04½

½gtkj : -½

Ø-	vk; dsen	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6	7
V-	Lo; adk jktLo ½+I½	351899	369542	400558	445084	531647
I	Lo; adk dj jktLo (1+2)	241786	264660	293831	336094	370505
1.	vfuok; ½dj					
i)	संपत्ति कर	134688	138108	147063	171294	182977
ii)	समेकित कर	27598	38134	41390	52043	54228
iii)	जल दर	52090	59699	69749	60434	77832
	dy ½½	214376	235941	258202	283771	315037
2.	foodk/½u dj					
i)	संडास कर	5	3	0	1	0
ii)	नाली कर	0	0	0	1	10
iii)	निर्यात कर	6220	6740	16506	35008	27464
iv)	प्रवेश कर	0	0	403	474	450
v)	विज्ञापन कर	661	991	1028	1201	1373
vi)	अन्य कर	20524	20977	17692	15638	26171
	dy ½½	27410	28719	35629	52323	55468
II.	x½&dj jktLo					
i)	भूमि एवं भवन	31982	28346	31054	36112	34968
ii)	बाजार शुल्क	15336	21865	17764	17663	19319
iii)	लायसेंस फीस	15962	15219	23318	17236	24009
iv)	ऋणों पर ब्याज	5000	3785	3950	4070	9074
v)	उद्यानों से राजस्व	177	406	377	303	123
vi)	भवन निर्माण फीस	11061	14344	12853	14452	20059
vii)	कम्पाउण्डिंग फीस	4	8	8	11	6
viii)	खाद्य की बिक्री	416	735	814	916	788
ix)	दण्ड	2285	2049	2112	1035	1620
x.)	अन्य राजस्व	27890	18125	14477	17192	51176
	dy ½½	110113	104882	106727	108990	161142
C-	dy gLrkrj.k ½+II½	506909	750502	836377	1008676	1331598
I.	jkT; ½jdkj ½sgLrkrj.k					
i)	विशेष अनुदान	0	0	0	0	0
ii)	चुंगी के एवज में क्षतिपूर्ति	251372	313383	525454	485575	574590
iii)	यात्री कर के एवज में	39482	39311	32407	36926	34509
iv)	अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क में हिस्सा	24681	13806	17736	23064	29828
v)	अन्य	83396	268017	174199	236746	391267
	dy ½½	398931	634517	749796	782311	1030194
II.	d½nz ½jdkj ½sgLrkrj.k					
i)	विशेष अनुदान	7341	6972	11845	21856	23305
ii)	सामान्य अनुदान	2228	14895	7230	20110	20407
iii)	मूलभूत सेवाओं हेतु अनुदान	7089	21049	13037	13395	16073
iv)	वि.आ. की अनुशंसा पर	7908	12960	18297	13778	20000
v)	अन्य अनुदान	83412	60109	36172	157226	221619
	dy ½½	107978	115985	86581	226365	301404
III.	jktLo ikflr; k ½/\$½	858808	1120044	1236935	1453760	1863245
IV.	½thxr ikflr; k	169169	200494	295220	367053	505063
	dy ikflr; k ½III+IV)	1027977	1320538	1532155	1820813	2368308

अनुलग्नक क. 12.2
 uxj ikfydk ifj"knkadh jktLo ikflr; k;
 ¼1999&00 I s 2003&04½

(हजार रु.)

Ø-	vk; dsen	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6	7
V-	Lo; adk jktLo ¼I+II½	53912	69578	96428	102124	140896
I.	Lo; adk dj jktLo (1+2)	23410	26014	38571	38087	33981
1.	vfuok; I dj					
i)	संपत्ति कर	5581	7324	18217	16207	14548
ii)	समेकित कर	5427	6256	8376	9276	6896
iii)	जल कर	7483	8836	8722	9156	10060
	dy ¼I½	18491	22416	35315	34639	31504
2.	foodk/ku dj					
i)	संडास कर	5	2	2	2	1
ii)	नाली कर	0	0	0	0	0
iii)	निर्यात कर	1946	2022	2022	2179	1195
iv)	प्रवेश कर	279	190	267	63	190
v)	विज्ञापन कर	18	15	15	15	15
vi)	तीर्थ यात्रीकर	176	510	287	426	493
vii)	अन्य कर	2495	859	663	763	583
	dy ¼II½	4919	3598	3256	3448	2477
II.	xj&dj jktLo					
i)	भूमि एवं भवन	3789	3304	4384	5705	4751
ii)	बाजार शुल्क	3124	4219	3562	4080	3495
iii)	लायसेंस फीस	512	609	742	602	615
iv)	ऋणों पर ब्याज	74	187	123	59	143
v)	उद्यानों से राजस्व	0	0	0	44	139
vi)	भवन निर्माण फीस	218	400	291	455	654
vii)	कम्पाउण्डिंग फीस	53	57	56	64	100
viii)	खाद्य की बिक्री	6	5	5	7	11
ix)	दण्ड	71	91	89	74	69
x.)	अन्य राजस्व	22655	34692	48605	52947	96938
	dy ¼III½	30502	43564	57857	64037	106915
C-	dy gLrkrj.k ¼I+II½	136082	160940	226095	260400	413318
I.	jkt; I jdkj I s gLrkrj.k					
i)	विशेष अनुदान	14789	17033	29970	45916	84210
ii)	चुंगी के एवज में क्षतिपूर्ति	64992	62964	98958	101261	105440
iii)	यात्री कर के एवज में	12868	10398	10240	13112	10394
iv)	अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क में हिस्सा	2669	1753	2716	4774	4140
v)	अन्य	19071	38424	54181	56516	96081
	dy ¼IV½	113889	130572	196065	221579	300265
II.	dñnz I jdkj I s gLrkrj.k					
i)	विशेष अनुदान	9026	1591	7587	9960	26431
ii)	सामान्य अनुदान	3623	8375	6183	5342	45354
iii)	मूलभूत सेवाओं हेतु अनुदान	4643	12591	7810	6894	27840
iv)	वि.आ. की अनुशंसा पर	439	5445	5074	10310	2000
v)	अन्य अनुदान	4462	2366	3376	6315	11428
	dy ¼V½	22193	30368	30030	38821	113053
III.	jktLo ikflr; k ¼I/\$½	189994	230518	322523	362524	554214

IV.	it hxr ikflr; k	25948	28028	46647	75070	52033
	dy ikflr; k III IV 1/2	215942	258546	369170	437594	606247

अनुलग्नक क्र. 12.3

uxj ipk; rkdh jktLo ikflr; k
1999-00 to 2003-04

(हजार रु.)

Ø-	vk; dsen	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6	7
V-	Lo; adk jktLo III IV 1/2	17918	28620	31534	29205	31983
I.	Lo; adk dj jktLo (1+2)	7746	11579	17959	13445	16478
1.	vfuo; l dj					
i)	संपत्ति कर	1946	3084	5746	4501	4168
ii)	समेकित कर	1789	2428	2849	3069	3081
iii)	जल कर	3262	3719	6297	4876	5116
	dy 1/2	6997	9231	14892	12446	12365
2.	foodk/ku dj					
i)	प्रवेश कर	0	283	356	348	414
ii)	निर्यात कर	461	1609	1580		2686
iii)	विज्ञापन कर	13	165	88	353	311
iv)	अन्य कर	275	291	1043	298	702
	dy 1/2	749	2348	3067	999	4113
II.	xj&dj jktLo					
i)	भूमि एवं भवन	3106	7561	3696	4199	3410
ii)	बाजार शुल्क	3084	3464	3710	4254	3726
iii)	लायसेंस फीस	69	65	79	83	68
iv)	ऋणों पर ब्याज	3	108	227	61	0
v)	उद्यानों से राजस्व	190	234	214	265	292
vi)	भवन निर्माण फीस	157	223	163	156	243
vii)	कम्पाउण्डिंग फीस	1	3	2	5	6
viii)	खाद्य की बिक्री	49	167	114	151	46
ix)	दण्ड	44	66	66	102	78
x.)	अन्य राजस्व	3469	5150	5304	6484	7636
	dy III 1/2	10172	17041	13575	15760	15505
C-	dy gLrkrj.k III IV 1/2	55040	92025	120098	155339	187275
I.	jkt; l jdkj l s gLrkrj.k					
i)	विशेष अनुदान	3719	3376	6728	11489	15290
ii)	चुंगी के एवज में क्षतिपूर्ति	19568	25169	36484	38195	34402
iii)	यान्त्री कर के एवज में	8000	6978	5883	7124	6510
iv)	अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क में हिस्सा	1827	3447	6536	10408	11219
v)	अन्य	8751	24195	39060	47392	71406
	dy 1/2	41866	63165	94691	114608	138827
II.	dlnz l jdkj l s gLrkrj.k					
i)	विशेष अनुदान	1665	5355	4858	11291	11659
ii)	सामान्य अनुदान	2110	3167	7036	5589	13053
iii)	मूलभूत सेवाओं हेतु अनुदान	4522	12414	7778	8894	11365
iv)	वि.आ. की अनुशंसा पर	3023	3466	2988	8929	4232
v)	राजस्व लेखे पर योजना अनुदान	0	302	99	164	345
vi)	अन्य अनुदान	1855	4156	2648	5864	7794
	dy III 1/2	13174	28860	25408	40731	48448
III.	dy jktLo ikflr; k III IV 1/2	72958	120645	151632	186637	219258
IV.	it hxr ikflr; k	3281	8268	10928	13977	20081

	dy ikfr;k ; IIIV½	76239	128913	162560	198521	239339
--	-------------------	-------	--------	--------	--------	--------

अनुलग्नक क्र. 12.4
 NRrhl x<+jkt; dsuxj ikfyd fuxetadk
 jktLo ,oa ipthr 0; ;
 1999&00 l s 2003&04½

(हजार रु.)

Ø-	vk; &0; ; dsen	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6	7
I.	dy jktLo 0; ;	823400	887344	1631152	2044917	1294821
1	सामान्य प्रशासन	436643	449214	456100	590350	552105
2	सार्वजनिक सुरक्षा	62779	88647	83243	127623	134883
3	सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सफाई	253946	277512	996992	1083372	385831
4	सार्वजनिक निर्माण	34647	39466	54206	73395	130469
5	शिक्षा	9861	11359	12767	16159	16786
6	विकास कार्य	6525	5771	10216	132656	11068
7	ब्याज भुगतान	10313	9833	8240	12017	14289
8	अन्य राजस्व व्यय	8686	5542	9388	9345	49390
II.	dy ipthr 0; ;	315679	361969	437291	565320	854077
III.	dy 0; ; ½+ II½ dy jktLo 0; ; dk dy 0; ; l s ifr'kr	1139079 72.29	1249313 71.03	2068443 78.86	2610237 78.34	2148898 60.26
IV.	dy ipthr 0; ; dk dy 0; ; l s ifr'kr	27.71	28.97	21.14	21.66	39.74

अनुलग्नक क. 12.5
 jkT; dh uxj ikfydk ifj"knka dk
 jktLo ,oa ipthr 0; ;
 1999-00 I s 2003-04½

(हजार रू.)

Ø-	vk; &0; ; ds en	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6	7
I.	dy jktLo 0; ;	137624	172343	245733	258100	311357
1	सामान्य प्रशासन	42955	57150	65963	66000	69846
2	सार्वजनिक सुरक्षा	19016	21136	42726	40664	41835
3	सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सफाई	45479	56273	83658	93554	105364
4	सार्वजनिक निर्माण	12755	10060	12482	23991	38873
5	शिक्षा	5587	9614	11445	12673	13825
6	विकास कार्य	9000	7552	10598	12073	14485
7	ब्याज भुगतान	0	33	0	90	0
8	अन्य राजस्व व्यय	2832	10525	18861	9055	27129
II.	dy ipthr 0; ;	42738	60920	102095	169921	186588
	dy 0; ; ¼I+ II ½	180362	233263	347828	428021	497945
III.	dy jktLo 0; ; dk dy 0; ; I s ifr'kr	76.30	73.88	70.65	60.30	62.53
IV.	dy ipthr 0; ; dk	23.70	26.12	29.35	39.70	37.47

	dy 0; ; Isifr'kr					
--	------------------	--	--	--	--	--

अनुलग्नक क. 12.6
 jkT; dh uxj ipk; rka dk jktLo , oai thxr 0; ;
 1999-00 Is 2003-04

(हजार रु.)

Ø-	vk; &0; ; dsen	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6	7
I.	dy jktLo 0; ;	55216	69159	89354	105498	117353
1	सामान्य प्रशासन	19036	21888	24360	25116	26273
2	सार्वजनिक सुरक्षा	6159	9672	13158	15390	17949
3	सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सफाई	15944	20007	24875	33505	39395
4	सार्वजनिक निर्माण	5112	7064	13092	17680	17233
5	शिक्षा	2443	2373	3165	3115	4107
6	विकास कार्य	4142	4945	6262	5640	6663
7	ब्याज भुगतान	1	1	0	1	0
8	अन्य राजस्व व्यय	2379	3209	4442	5051	5733
II.	dy ipt hxr 0; ;	8891	31205	45501	65704	82508
	dy 0; ; 1/2 I + II 1/2	64107	100364	134855	171202	199861
III.	dy jktLo 0; ; dk dy 0; ; Isifr'kr	86.13	68.91	66.26	61.62	58.72
IV.	dy ipt hxr 0; ; dk dy 0; ; Isifr'kr	13.87	31.09	33.74	38.38	41.28